

# नाविक भविष्य निधि



## नाविक भविष्य निधि संगठन

(वत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन)

नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 की कार्यप्रणाली पर

# पचषनवीं

वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जीखा

# 2020-2021

-: कार्यालय :-

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9 बालचंद हिराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400001.

फैक्स : 022-22616202 दूरभाष : 22616925 / 22662044

ई-मेल : [spfo-commr@spfo.gov.in](mailto:spfo-commr@spfo.gov.in)

वेबसाइट : [www.spfo.gov.in](http://www.spfo.gov.in)

# नाविक भविष्य निधि



## नाविक भविष्य निधि संगठन

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन)

नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 की कार्यप्रणाली पर

# पचपनवीं वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जोखा 2020-21

--: कार्यालय :-

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9 वालचंद हिराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.

फैक्स : 022-22616202 दूरभाष : 22616925 / 22662044

ई-मेल : [spfo-commr@spfo.gov.in](mailto:spfo-commr@spfo.gov.in)

वेबसाइट: [www.spfo.gov.in](http://www.spfo.gov.in)



# विषय सूची

अध्याय संख्या	सूची	पृष्ठ संख्या
1.	विषय सूची.....	1
2.	न्यासियों की सूची.....	2
3.	प्रस्तावना.....	3
4.	न्यासी मंडल.....	3
5.	प्रशासन.....	3
6.	व्याप्ती.....	3
7.	वर्ष एक नजर में.....	4
8.	भविष्य निधि अंशदान.....	5
9.	निवेश.....	6
10.	ब्याज.....	6
11.	भविष्य निधि अंशदानों का प्रेषण और वसुली (बकाया).....	7
12.	क्षतिपूर्तियाँ.....	7
13.	अंतिम निकासियाँ.....	7
14.	अप्रत्यर्णीय निकासी / अन्तिम निकासियाँ.....	8
15.	जब्त की गई धनराशि.....	8
16.	अंतरण और नियंत्रण मुक्तता.....	8
17.	लेखा / अन-पोस्टेड मदों के भाग का कंप्यूटरीकरण.....	9
18.	प्रशासन खाता.....	9
19.	संगठन की परिसंपत्तियाँ.....	9
20.	राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की रिपोर्ट.....	10
21.	लेखा परीक्षण.....	10
22.	सतर्कता इकाई की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ.....	10
23.	सूचना अधिकार अधिनियम के मामले.....	10
24.	धन्यवाद ज्ञापन.....	10
परिशिष्ट	नाविक भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या .	11
	अनुबंध 1. कुल निवेशों का सारांश .....	12
	अनुबंध 2. भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति और भुगतान किए गए दावों का विवरण .....	13
	अनुबंध 3. निवेशित राशियों का सारांश और अर्जित ब्याज की स्थिति.....	14
	अनुबंध 4. प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण.....	15
	अनुबंध 5. नाविक भविष्य-निधि संगठन की परिसंपत्तियों का वर्गीकृत सार .....	16

**नाविक भविष्य निधि - न्यासी मंडळ**  
**2020 - 21**

अध्यक्ष : 1) श्री अमिताभ कुमार, नौवहन महानिदेशक

केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्य :

- 1) उप वित्त सलाहकर अथवा निदेशक (वित्त) अथवा उप सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 2) उप महानिदेशक नौवहन (कू), (नाविक कल्याण से संबंधित), मुंबई ।
- 3) अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ अथवा उनके द्वारा नामित ।

नियोक्ताओं (पोत मालिकों) के प्रतिनिधि :

- 1) कैप्टन महेंद्र पाल भसीन  
मेरीटाईम एसोसियेशन ऑफ शिपओनर्स, शिपमैनेजर एण्ड एजेंट्स (मासा), मुंबई ।
- 2) कैप्टन राजेश टंडन  
फॉरन शिप ओनर्स एण्ड शिप मैनेजर एसोसिएशन (फोसमा), मुंबई ।
- 3) श्री. पी. के. राणे  
इंडियन नैशनल शिपओनर्स एसोसिएशन (इनसा), मुंबई

नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :

- 1) श्री. अब्दुलगनी वाई. सेरंग  
महासचिव और कोषाध्यक्ष, नैशनल यूनियन ऑफ सीफेरर्स ऑफ इंडिया, मुंबई ।
- 2) श्री. एस. कलाइकोवन  
नैशनल यूनियन ऑफ सीफेरर्स ऑफ इंडिया, चैन्नई ।
- 3) श्री. अमर सिंह ठाकुर  
द मेरीटाईम यूनियन ऑफ इंडिया, मुंबई ।

सचिव : 1) श्री. सुरेन्द्र कुमार  
आयुक्त, नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई ।

---

-: कार्यालय :-

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9 वालचन्द हीराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.

दूरभाष -

022-2262 0402 (आयुक्त - व्यक्तिगत) 022-2261 6925 / 022-2266 2044 (कार्यालय)

फैक्स : 022-2261 6202

वेबसाईट : [www.spfo.gov.in](http://www.spfo.gov.in) / ई-मेल : [spfo-commr@spfo.gov.in](mailto:spfo-commr@spfo.gov.in)

# पचपनवीं वार्षिक रिपोर्ट (2020 - 21)

## नाविक भविष्य निधि योजना की कार्यप्रणाली पर वर्ष 2020 - 21 की वार्षिक रिपोर्ट

नाविक भविष्य निधि संगठन के न्यासी मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों को वर्ष 2020 - 21 के लिए नाविक भविष्य निधि स्कीम की कार्यप्रणाली पर पचपनवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है ।

### प्रस्तावना

2. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) के अंतर्गत नाविक भविष्य निधि स्कीम की स्थापना की गई जो 1 जुलाई 1964 से प्रभावी है । इसके अन्तर्गत नौवहन उद्योग में कार्यरत नाविकों को वृद्धावस्था में सेवानिवृत्ति लाभ तथा मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए इसकी शुरुआत की गई । भविष्य निधि स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नाविक भविष्य निधि कार्यालय की स्थापना 9 जुलाई, 1966 में की गई ।

### न्यासी मंडल

3. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत त्रिपक्षीय न्यासी मंडल का गठन सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार के तीन नामजद प्रतिनिधि तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के तीन-तीन प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर किया गया है । नौवहन महानिदेशक, न्यासी मंडल के पदेन अध्यक्ष हैं और नाविक भविष्य निधि आयुक्त जो न्यासी मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और मंडल के सचिव हैं ।

### प्रशासन

4. आयुक्त की सहायता के लिए प्रशासकीय सह लेखाधिकारी और अन्य कर्मचारी सदस्य हैं । कर्मचारियों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट में दिया गया है ।
  - 4.1 नाविक पाल कोलकता और उनके अधीन तैनात कर्मचारी कोलकता पंजीकृत नाविकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाविक भविष्य निधि संगठन के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाएं रखते हैं । इसके अतिरिक्त नाविक भविष्य निधि संगठन मुंबई और कोलकता को कम्प्यूटर से जोडा गया है । यह कार्य प्रणाली सफलतापूर्वक नाविकों को नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध करवाती है तथा एक कार्मिक को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए वहां तैनात किया गया है ।

### व्याप्ति

5. आलोच्य वर्ष के दौरान, नाविक भविष्य निधि स्कीम में लगभग 97,334 खाते शामिल थे ।

## वर्ष एक नजर में

6. वर्ष 2020-21 तथा गत वर्ष के दौरान संगठन के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :- (राशि करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	2020 - 21 ₹	2019 - 20 ₹
6.1	(1) नाविक सदस्यों के खाते (2) प्राप्त भविष्य निधि अंशदान (3) भविष्य निधि खाते में प्रगामी योग का शेष (जब्त खातों को छोड़कर)	97,334 156.09 2,355.19	94,142 144.20 2,078.13
6.2	(1) प्राप्त किया गया प्रशासनिक प्रभार (2) प्रशासनिक प्रभार की दर (3) अन्य प्राप्तियाँ (ब्याज सहित) (4) सरकार से अनुदान (5) कुल आय (6) किया गया प्रशासनिक व्यय (7) अधिशेष	5.63 5% 0.59 कुछ नहीं 6.24 5.72 0.53	5.10 5% 0.69 कुछ नहीं 5.79 4.17 1.65
6.3	अन्तिम निकासी : (1) भुगतान किए गए दावों की संख्या (2) भुगतान की गई धनराशि	377 25.47	1498 67.78
6.4	अप्रतिदेय निकासियाँ : (स्कीम के पैरा 58, क, ख, ग और च के अन्तर्गत) (1) भुगतान किए गए दावों की संख्या (2) भुगतान की गई राशि	258 2.03	208 2.22
6.5	भविष्य निधि खाते से भुगतान किए गए सभी प्रकार के कुल मामलों की संख्या : (6.3 एवं 6.4 उपरोक्त) भुगतान की गई राशि	635 27.51	1706 70.00
6.6	निवेश / पुनः निवेश की धन राशि (पैरा - 8)	390.93	225.34
6.7	(i) विनियोग पर अर्जित ब्याज (ii) वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज में वृद्धि / कमी	181.13* (+) 30.24 20%	150.89** (+) 7.41 5.17%
6.8	सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	145.55 7% की दर से	135.08 7.25% की दर से

\* प्रोद्भूत ब्याज संमिलित

\*\* गत वर्ष का अपवर्जित प्रोद्भूत ब्याज

### मेसर्स डीएचएफएल तथा आईएल एन्ड एफएस के खराब निवेश की भरपाई के लिए ३० करोड़ रुपए की राशि का समायोजन किया गया है ।

## भविष्य निधि अंशदान

7. आलोच्य वर्ष सहित पिछले चार वर्षों में भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति निम्नानुसार है :-

वर्ष	भविष्य निधि अंशदान ₹
2016 - 17	1,074,720,795.87
2017 - 18	1,225,543,809.29
2018 - 19	1,331,191,296.00
2019 - 20	1,441,953,570.48
2020 - 21	1,560,931,698.19

7.1 दिनांक 31-03-2021 को भविष्य निधि खातों में ₹ 2360.35 करोड थे जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	धनराशि	कुल प्रतिशत
1.	भविष्य निधि अंशदान (अर्जित ब्याज सहित)	23,011,167,093.01	97.49
2.	सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने के पश्चात उचंत ब्याज खाते का शेष	539,574,964.92	2.29
3	ज़ब्त खाते में शेष	51,649,227.56	0.22
4.	भविष्य निधि उचन्त खाता (लौटाए गए चैक / मनीऑर्डर्स)	1,122,652.30	0.005
	<b>योग :</b>	<b>23,603,513,937.79</b>	<b>100.00</b>

## निवेश

8. समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्धारित निवेश की पद्धति के अनुसार भविष्य निधि की धनराशि को निवेशित किया जाता है। आलोच्य वर्ष 2020 - 21 के दौरान अंशदान और ब्याज से प्राप्त राशि ₹ 3,909,254,684.27 का निवेश / पुर्ननिवेश किया गया।

क्रम संख्या	विवरण	किताबी मूल्य (बुक वेल्यू)
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	-
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	1,948,350,699.74
3.	पी.एस.यू / एफ.आय.बॉण्ड्स	1,331,419,545.40
4.	मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स	77,300,000.00
5.	म्युचअल फंड / इक्विटीज्	552,184,439.13
	<b>कुल योग</b>	<b>3,909,254,684.27</b>

- 8.1 कुल राशि ₹ 2360.35 करोड़ जिसका विवरण पैरा 7.1 की रिपोर्ट में है, उसमें से ₹ 23,011,167,093.01 की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्धारित पद्धति के अनुसार निवेशित की गई है जिसे अनुबंध 1 में दर्शाया गया है। ₹ 72,485,536.29 की राशि भविष्य-निधि के बचत खाते में जमा है। निवेशों पर प्राप्त होने वाला प्रोद्भूत ब्याज ₹ 552,397,449.59 है। ₹ 16,332.06 की राशि ज़ब्त खाते के बैंक के बचत खाते में जमा है। इसके अतिरिक्त ₹ 480,69,098.66 की राशि ज़ब्त खाते से निवेशित की गई है। जिसपर ₹ 3,563,796.84 की राशि का ब्याज अर्जित हुआ है।
- 8.2 भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति और भुगतान किये गए दावों का विवरण आलोच्य वर्ष सहित पाँच वर्षों के लिए अनुबंध - 2 में दर्शाया गया है।

### ब्याज

9. पिछले वर्ष प्राप्त नकद ₹ 1,508,902,068.17 की तुलना में कुल निवेश की धनराशि पर ₹ 1,811,340,206.39 ब्याज (प्राद्भूत ब्याज मिलाकर) प्राप्त हुआ है। ब्यौरा अनुबंध-3 में दर्शाया गया है।
- 9.1 योजना के अनुच्छेद 51 के अनुसार, ब्याज की दर न्यासी मंडल के साथ परामर्श के बाद सरकारी अनुमोदन से सुनिश्चित की जाती है और उसके अनुसार सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में ब्याज जमा किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए 7% की वार्षिक दर से ब्याज जमा किया गया है।
- 9.2 वर्ष 2020-21 में सदस्यों के खाते में ब्याज ₹ 1,455,480,068.00 जमा करने के बाद ब्याज उचंत खाते में ₹ 539,574,964.92 की राशि शेष है और निवेशों पर उपलब्ध ब्याज प्रोद्भवन आधार पर है।
- 9.3 आलोच्य वर्ष सहित पिछले वर्ष चार वर्षों में सदस्यों के लिए अनुगत ब्याज दर नीचे दर्शाई जा रही है :-

वर्ष	ब्याज की दर
2016 - 17	9.00%
2017 - 18	8.50%
2018 - 19	8.25%
2019 - 20	7.25%
2020 - 21	7.00%

## भविष्य निधि अंशदानों का प्रेषण / वसूली (बकाया)

10. अधिकतर नियोक्ताओं ने निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत भविष्य निधि अंशदान देना जारी रखा है।
- 10.1 भ.नि. विवरणों की नियमित सुविचारित समीक्षा और मिलान नियमावली के रूप में जारी रहा है और जहाँ कहीं कोई नियोक्ता अंशदान को निर्धारित अवधि में प्रेषित करने में असफल रहा, उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया। जब कोई नियोक्ता, कारण बताओ सूचना देने के बाद भी अंशदान भेजने में असफल रहता है। ऐसे नियोक्ताओं से नाविक भविष्य निधि अधिनियमन 1966 की धारा 9 के अन्तर्गत बकाया धनराशि की वसूली की जाती है।
- 10.2 उपरोक्त वसूलियों के अलावा ₹ 346,456.27 की धनराशि विभिन्न नौवहन कम्पनियों पर बकाया है जो कि समापन में चली गयी है। प्रक्रिया विधि अनुसार कार्यालय परिसमापक को इन क्षतिपूर्तियों की धनराशियों के लिए दावे प्रस्तुत किए गए हैं।

### क्षतिपूर्तियाँ

11. आलोच्य वर्ष के दौरान भविष्य निधि अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों के भुगतान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 3,191,942.15 की धनराशि प्राप्त की गई। आलोच्य वर्ष सहित पिछले पाँच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली की स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष	वसूली गई क्षतिपूर्तियाँ ₹
2016 - 17	3,214,302.00
2017 - 18	1,545,816.00
2018 - 19	6,513,137.00
2019 - 20	5,497,652.39
2020 - 21	3,191,942.15

### अंतिम निकासियाँ

12. बाहर जाने वाले सदस्यों को लगभग ₹ 25.47 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया तथा 377 खातों को बंद किया गया, आलोच्य वर्ष और गत पाँच वर्षों के दौरान बन्द किए खातों की संख्या तथा भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	मामलों की संख्या	भुगतान की गयी धनराशि ₹
2016 - 17	1071	596,319,065.58
2017 - 18	1288	717,880,076.09
2018 - 19	1260	761,630,097.24
2019 - 20	1498	677,847,795.48
2020 - 21	377	254,721,715.43

- 12.1 सभी अंतिम निकासी और अप्रत्यक्षणीय निकासियों का भुगतान आर.टी.जी.एस./एनईएफटी के जरिए केनरा बैंक द्वारा नाविकों के खातों में प्रेषित किया जाता है, परंतु जहाँ कहीं केनरा बैंक को नाविक के खातों में त्रुटि या गलती मिलती है उन संबंधित राशियों को बैंक खारिज कर देता है और तदानुसार इस कार्यालय को सूचित किया जाता है, नाविक भविष्य निधि कार्यालय संबंधित नाविकों / आश्रितों से पत्र व्यवहार करके त्रुटियों को दूर कर फिर से नाविकों के खातों में धनराशि भेजी जाती है, तथापि पुराने आर सी एच मामलों (रिटर्न चैक) में नाविक और उनके परिवारों से पूरी जानकारी लेने के बाद ही भुगतान किया जाता है।

## अप्रत्यपर्णीय निकासी (नॉन-रिफन्डेबल) / अन्तिम निकासियाँ

13. अन्तिम/अप्रतिदेय निकासी के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सदस्यों और मृत सदस्यों के अथवा उनके आश्रितों के अन्तिम निकासी के दावों और अप्रतिदेय निकासियों के दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए संगठन ने अपने कार्यप्रणाली को सशक्त किया है। अप्रतिदेय निकासी / अप्रत्यपर्णीय निकासी के आवेदन, पेशगी रसीद, मेन्डेट फार्म और चेक लिस्ट (जमा किये गये दस्तावेजों का विवरण) आवेदन फार्म के साथ देना अनिवार्य है इसके लिए सभी प्रकार के फार्म ना.भ.नि. सं. की वेबसाइट में अपलोडेड किए गये हैं इन्हें सिस्टम से डाउनलोड करके आवेदक इन आवेदनों को पूर्ण रूप से भरकर नाविक भविष्य निधि राशि के भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं। संगठन के बेहतर प्रयासों के बावजूद उन मामलों में देरी होती है, जहाँ पर नाविकों ने नामांकन फार्म में आश्रित को नामांकित नहीं किया है ऐसे मामलों में नाविक भविष्य निधि संगठन जिलाधिकारी / पुलिस अधिकारी से तुरंत पत्र व्यवहार करके संबंधित नाविक के वारिस का प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयास करता है। मृत नाविक/आश्रितों के कानूनन वारिस के दस्तावेज प्राप्त होते ही। नाविक भविष्य निधि संगठन नाविकों के सभी अन्तिम /अप्रतिदेय निकासियों का भुगतान बैंक के बजाए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा वर्ष 2013 से सीधे नाविकों के खाते में भेजना आरम्भ कर दिया है।

13.1 इस कार्यालय में आनेवाले नाविकों को उनके रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए उनकी लॉग-इन आयडी तथा पासवर्ड सहित नाविक भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है।

13.2 नाविक भविष्य निधि संगठन ने वेब सर्वर को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। ताकि नाविक "http://spfo.gov.in" वेबसाइट में जाकर अपना पी.एफ. के खाते का विवरण देख सकें। सभी अन्तिम / अप्रतिदेय निकासी के दावों को नए सॉफ्टवेयर प्रणाली के जरिए निपटाया जाता है।

### ज़ब्त की गई धनराशि

14. ज़बती खाते में से कुल धनराशि ₹ 48,069,098.66 निवेशित की गई है और शेष राशि ₹ 16,332.06 बचत खाते में जमा है।

14.1 आलोच्य वर्ष सहित पिछले पाँच वर्षों में ज़ब्त की गई धनराशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	ज़ब्त की गयी धनराशि ₹
2016 - 17	-
2017 - 18	-
2018 - 19	40,230.00
2019 - 20	6,303.00
2020 - 21	17,707.00

### अंतरण और नियंत्रण मुक्तता

15. आलोच्य वर्ष की समीक्षा के अंतर्गत नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अंतर्गत इस संगठन से नए नियोक्ता को लेखा स्थानांतरण का कोई मामला संबंधित नाविक सदस्यों से प्राप्त नहीं हुआ है। नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 20 (1) के अंतर्गत किसी भी नियोक्ता को कोई भी छूट प्रदान नहीं की गई है।

## लेखा / अन-पोस्टेड मदों के भाग का कंप्यूटरीकरण

16. सदस्यों की वर्ष 2020 - 21 की लेखा पर्चियों की प्रिंटिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है ।  
तथापि नाविक "http://spfo.gov.in" वेबसाईट पर जाकर अपने भविष्य निधी खाते का विवरण देख सकते हैं ।

- 16.1 आलोच्य वर्ष के लिए बिना इन्दराज किए गए अंशदानों की निकासी में निम्नलिखित प्रगति हुई है :-

	प्रविष्टियों की संख्या	धनराशि (₹)
पिछली रिपोर्ट के अनुसार शेष	6313	906,48,498.43
जोड़ : वर्ष 2020 - 21 के दौरान	7810	126,013,224.59
योग	14123	216,661,723.02
घटाएं : वर्ष के दौरान क्लियर (-)	1164	147,67,637.00
शेष	<b>12959</b>	<b>201,894,086.02</b>

### प्रशासन खाता

17. योजना का प्रशासनिक व्यय 5% की दर से (नियोक्ता + नाविक) के भविष्य-निधि योगदान से नियोक्ताओं द्वारा संग्रहित किया जाता है । पांच वर्षों के प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण अनुबंध 4 में दिया गया है ।
- 17.1 वर्ष के अन्त में ₹ 92,706,815.46 की धनराशि प्रशासनिक प्रभार खाते में जमा है । प्रशासनिक खाते से ₹ 91,288,114.26 की धनराशि नियतकालीन विनियोजन में निवेशित है । 31 मार्च 2021 को ₹ 1,412,260.60 बचत खाते में और ₹ 6440.60 की राशि हाथ में शेष है ।
- 17.2 31मार्च 2021 को पेन्शन /उपदान फण्ड में ₹ 135,813,461.01, की राशी प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी है और शेष राशि ₹ 6,337.94 बचत खाते में जमा है ।

### संगठन की परिसंपत्तियाँ

18. नाविक भविष्य निधि स्कीम 1966 के पैरा 44 (3) के अनुसार आलोच्य वर्ष के लिए संगठन की परिसंपत्तियों का वर्गीकृत सारांश इस रिपोर्ट के अनुबंध -5 में दिया गया है ।

## राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की रिपोर्ट

19. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/24001/976 – रा.भा. (ए-1) दिनांक 7 फरवरी 1977 के अनुसार जांच बिन्दुओं की स्थापना की गयी है तथा वार्षिक कार्यक्रम में इन्हें कार्यान्वित करके वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजभाषा का प्रगामी प्रयोग करने के लिए कारवाई की गई। कार्यालय के दैनिक कामकाज में प्रयोग आने वाले सभी फार्मों को द्विभाषिक रूप में अनुवादित करके छपवाया गया है। 80% से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिन्दी में ही दिये जाते हैं। हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए हिन्दी दिवस भी मनाया गया है। कम्प्यूटर इनबिल्ट युनिकोड हिन्दी साफ्टवेयर को कार्यालय के सभी कम्प्यूटरों में एक्टीवेट कर हिन्दी टंकण संबंधी कार्य कम्प्यूटरों से ही किया जा रहा है।

### लेखा परीक्षण

20. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षक केन्द्रीय मुंबई द्वारा, नाविक भविष्य निधि संगठन के वर्ष 2020-21 के खातों का लेखा परिक्षण किया गया।

### सतर्कता इकाई की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

21. आयुक्त महोदय के सीधे नियंत्रण में सतर्कता इकाई कार्यशील है। वर्ष के दौरान इस इकाई के पास किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। अतः किए गए दावे यथासमय निपटा दिए जाते हैं।

### सूचना अधिकार अधिनियम के मामले

22. सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों का निर्धारित अवधि में निपटारा कर दिया जाता है और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान का कोई भी सूचना अधिकार अधिनियम का आवेदन लंबित नहीं है।

### धन्यवाद ज्ञापन

23. न्यासी मंडल ने, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, नौवहन महानिदेशालय, नाविक पालों, निदेशक, नाविक नियोजन कार्यालयों, जिलाधिशों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा नियोक्ताओं एवं नाविकों के प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा उनके सहयोग की सराहना की गई है।

आयुक्त भविष्य निधि कार्यालय ने भविष्य निधि - धनराशियों का शीघ्र भुगतान एवं भविष्य निधि राशि का संकलन सहित सभी दिशाओं में निरंतर सफलता अर्जित की है। वर्ष के दौरान उत्कृष्ट सेवा के लिए न्यासी मंडल ने कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रशंसा की है।



सुरेन्द्र कुमार

सचिव,

न्यासीमंडल

नाविक भविष्य निधि, मुंबई

परिशिष्ट  
(अनुच्छेद 4)

नाविक भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या

क्रम संख्या	श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	अ. जा. कर्मचारी	अ. ज. जा. कर्मचारी	अ. वि. वर्ग कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्रुप 'ए'	2	1	-	-	-
2	ग्रुप 'बी' (नॉन गजेटेड)	1	-	-	-	-
3	ग्रुप 'सी'	28	10	1	-	2
4	ग्रुप 'डी'	5	1	1	-	-
	कुल	36	12	2	-	2

अनुबंध - 1  
(अनुच्छेद 8.1 का संदर्भ)

31.03.2021 को कुल निवेशों का सारांश

क्रम संख्या	निवेश पध्दति (1)	अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) (2)	किताबी मूल्य (बुक वेल्यू) (3)
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	2,104,280,000.00	2,116,830,816.10
2.	राज्य सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत की गई प्रतिभूतियाँ	9,530,800,000.00	9,647,139,980.64
3.	पी एस यू	6,805,150,000.00	6,551,388,088.50
4.	विशेष जमा	3,419,353,488.64	3,419,353,488.64
5.	दीर्घ काल के टीडीआर	124,158,000.00	124,158,000.00
6.	मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स	773,00,000.00	773,00,000.00
7.	म्युचुअल फंड्स	1,074,996,719.13	1,074,996,719.13
	कुल योग	23,136,038,207.77	23,011,167,093.01

अनुबंध -2  
(अनुच्छेद 8.2 का संदर्भ)

भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति और भुगतान किए गए दावों का विवरण

वर्ष	भविष्य-निधि अंशदान की प्राप्त धनराशि	क्षतिपूर्ति की वसूल की गई कुल धनराशि	दावों का भुगतान अंतिम / अप्रतिदेय निकासियाँ	स्तंभ (2) से प्राप्त भ.नि. पर दावों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	₹	₹	₹	%
2016-17	1,074,720,795.87	3,214,302.00	616,174,065.58	57.33%
2017-18	1,225,543,809.29	1,545,816.00	741,298,676.09	60.49%
2018-19	1,331,191,296.00	6,513,137.00	795,027,997.24	59.72%
2019-20	1,441,953,570.48	5,497,652.39	700,009,551.48	48.55%
2020-21	1,560,931,698.19	3,191,942.15	275,080,013.43	17.62%

अनुबंध -3  
(अनुच्छेद 9 का संदर्भ )

निवेशित राशियों का सारांश, कुल निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज की स्थिति व  
आलोच्य वर्ष सहित पिछले पाँच वर्ष का विवरण.

वर्ष	अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) ₹	किताबी मूल्य (बुक वेल्यू) ₹	अर्जित ब्याज ₹
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	14,466,433,890.44	14,615,325,307.86	1,221,267,637.84
2017-18	16,156,865,980.44	16,325,285,376.24	1,307,169,079.44
2018-19	18,067,199,910.44	18,226,551,463.15	1,434,786,442.17 *
2019-20	20,024,419,578.64	20,226,693,942.85	1,508,902,068.17 #
2020-21	23,136,038,207.77	23,011,167,093.01	1,811,340,206.39 #

# प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित

\* पिछले साल का प्रोद्भूत ब्याज को छोड़कर

अनुबंध -4  
(अनुच्छेद 17 का संदर्भ)

भविष्य निधि अंशदान  
प्रशासनिक प्रभार प्राप्तियाँ और व्यय का वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक का विवरण

वर्ष	कुल अंशदान पर प्रशासनिक प्रभार की दर	भविष्य निधि अंशदान (अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं)	प्रशासनिक प्रभार (अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं)	व्यय	प्रशासनिक प्रभार की निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज
		₹	₹	₹	₹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016 - 17	5%	1,074,720,795.87	35,544,997.14	29,617,356.00	4,993,063.10 #
2017 - 18	5%	1,225,543,809.29	42,067,303.50	37,299,318.42	6,279,917.63 #
2018 - 19	5%	1,331,191,296.00	46,132,678.55	37,497,904.07	6,058,403.69 #
2019 - 20	5%	1,441,953,570.48	50,999,572.73	41,675,057.43	6,571,648.58 #
2020 - 21	5%	1,560,931,698.19	56,388,315.93	57,187,001.02	5,444,293.20 #

# प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नाविक भविष्य निधि संगठन  
की परिसंपत्तियों का वर्गीकृत सार

परिसम्पत्तियों की श्रेणी	लागत मूल्य के अनुसार 31.03.2021 को किताबी मूल्य (मूल्य हास अस्वीकृत)
<b>1 नाविक भविष्य निधि लेखा :</b>	<b>₹</b>
(1) भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	2,116,830,816.10
(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियाँ	9,647,139,980.64
(3) पी.एस.यू.	6,551,388,088.50
(4) विशेष जमा	3,419,353,488.64
(5) दीर्घ काल के टीडीआर	124,158,000.00
(6) मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स	773,00,000.00
(7) म्युचुअल फंड्स	1,074,996,719.13
<b>कुल योग</b>	<b>23,011,167,093.01</b>
<b>2 बैंक में जमा राशि</b>	
<b>I (i) भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई</b>	--
(ii) केनरा बैंक (सिंडिकेट बैंक), मुंबई	50,430,946.24
(iii) भारतीय स्टेट बैंक, कॅंग शाखा (निवेश खाता)	22,054,590.05
<b>II प्रशासन खाता :</b>	
(1) निवेशित राशि	91,288,114.26
(2) बैंक, शेष	
(क) भारतीय स्टेट बैंक (प्रशासन खाता), मुंबई	26,653.28
(ख) बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	6,646.44
(ग) केनरा बैंक, मुंबई	1,378,960.88
(3) हाथ में नकद शेष	6,440.60
<b>III परिसम्पत्तियों की मूल्य : *</b>	
(1) कार्यालय भवन	79,227.46
(2) फर्निचर, फिक्सचर इत्यादि	178,651.36
(3) कार्यालय उपकरण	120,243.02
(4) संगणक	503,510.39
(5) कानूनी सॉफ्टवेअर	34,465.08
(6) कार्यालय परिसर की मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान	8,100,000.00
(7) प्रोजेक्टर के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान - वर्ष 2019-2020	369,338.00
(8) 2019-20 में कार्यालय परिसर की मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान का प्रावधान	2,947,117.00
(9) 2020-21 में कार्यालय परिसर की मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान का प्रावधान	593,457.00
(10) नए सॉफ्टवेअर के विकास के लिए एनआईसीएसआई को अग्रिम भुगतान	360,000.00
(11) 2020-21 में नए सॉफ्टवेअर के विकास के लिए एनआईसीएसआई को अग्रिम भुगतान	540,000.00

\* परिसंपत्तियों का मूल्य वस्तुओं की डब्ल्यू.डी.वी. की लागत पर आधारित है।

ह/-  
(सुरेन्द्र कुमार)  
आयुक्त,  
नाविक भविष्य निधि, मुंबई

# **NAVIK BHAVISHYA NIDHI**



55th  
R  
E  
P  
O  
R  
T

**SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(UNDER MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS)**

**55<sup>TH</sup> (FIFTY FIFTH)  
ANNUAL REPORT  
2020 - 21**

**ON THE WORKING OF  
SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME, 1966**

**OFFICE OF  
THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND COMMISSIONER  
KRUPANIDHI, 3RD FLOOR, 9, WALCHAND HIRACHAND MARG,  
BALLARD ESTATE, MUMBAI - 400 001.**

**FAX - 022-2261 62 02**

**PHONE - 022-22616925, 022-22662044**

**E-mail Address : [spfo-commr@spfo.gov.in](mailto:spfo-commr@spfo.gov.in)**

**Web site : [www.spfo.gov.in](http://www.spfo.gov.in)**



# C O N T E N T S

Chapter No.		Page Nos
I.	Contents	01
II.	List of Trustees	02
III.	Introduction	03
IV.	Board of Trustees	03
V.	Administration	03
VI.	Coverage	03
VII.	Year at a Glance	04
VIII.	Provident Fund Contributions	04
IX.	Investments	05
X.	Interest	05 - 06
XI.	Remittance/Recoveries of Provident Fund Contributions (Arrears)	06
XII.	Damages	06
XIII.	Final Withdrawals	07
XIV.	Non-refundable Withdrawals	07
XV.	Forfeiture	07
XVI.	Transfers and Exemptions	08
XVII.	Computerisation of part Accounts/Unposted Items	08
XVIII.	Administration Account	08
XIX.	Assets of the Organisation	08
XX.	Report on progressive use of RAJBHASHA	08
XXI.	Audit	09
XXII.	Activities and Achievements of the Vigilance Units	09
XXIII.	Right To Information (RTI) Cases	09
XXIV.	Acknowledgements	09
Appendix	Total number of Employees in the Seamen's Provident Fund Organization	10
Annexure 1.	Summary of Aggregate Investments	11
Annexure 2.	Summary of Collection of Provident Fund, Damages and Claims Paid	12
Annexure 3.	Position of Investments and Interest earned	13
Annexure 4.	Collection of Provident Fund/Administrative Charges and Expenditure	14
Annexure 5.	Classified Summary of the Assets of the Organization	15

**SEAMEN'S PROVIDENT FUND  
BOARD OF TRUSTEES  
2020-21**

**CHAIRMAN**      **Shri Amitabh Kumar**  
Director, General of Shipping

**Government Representatives:**

1. Deputy Financial Advisor or Director (Finance) or Deputy Secretary  
Ministry of Ports, Shipping and Waterways, New Delhi
2. Deputy Director General of Shipping ( Crew), Mumbai  
(Dealing with Seamen's Welfare)
3. Additional Central Provident Fund Commissioner  
EPFO, or his Nominee

**Employers' (Shipowners) Representatives:**

1. **Capt. Mahendra Pal Bhasin**  
Maritime Association of Ship owner  
Ship Managers and Agents', (MASSA) Mumbai.
2. **Capt. Rajesh Tandon**  
Foreign Owners Representatives and  
Ship Managers Association, (FOSMA), Mumbai.
3. **Shri P. K. Rane**  
Indian National Shipowners' Association, (INSA)  
Mumbai

**Seamen's Representatives :**

1. **Shri Abdulgani Y. Serang,**  
General Secretary-cum-Treasurer  
National Union of Seafarers of India, Mumbai.
2. **Shri S. Kalaikovan**  
National Union of Seafarers of India, Chennai
3. **Shri Amar Singh Thakur**  
The Maritime Union of India, Mumbai

**SECRETARY :** 1. **Shri Surendra Kumar**  
Commissioner,  
Seamen's Provident Fund Organisation.

**OFFICE :**

"Krupanidhi", 3rd Floor, 9, Walchand Hirachand Marg,  
Ballard Estate, Mumbai - 400 001.

**Telephones :-** 022-2262 0402 (Commissioner - Personal)  
2261 6925, 22662044 (Office)

**Fax:** 022-22616202

**Web site :** [www.spfo.gov.in](http://www.spfo.gov.in)

**E-mail Address :** [spfo-commr@spfo.gov.in](mailto:spfo-commr@spfo.gov.in)

## **FIFTY FIFTH ANNUAL REPORT**

### **ON THE WORKING OF THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME FOR THE YEAR 2020-21**

The Chairman and Members of the Board of Trustees, Seamen's Provident Fund have the pleasure in presenting this 55<sup>th</sup> Annual Report on the working of the Seamen's Provident Fund Scheme for the year 2020-21.

#### **INTRODUCTION**

2. The Seamen's Provident Fund Scheme framed under the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966) was introduced retrospectively w. e. f. 1st July, 1964 to provide for the institution of a Provident Fund for all Seamen, in view of the obvious need to provide old age retirement benefit to the seamen members engaged in the Shipping Industry (Merchant Navy) and their family members in the event of death. To administer the Provident Fund Scheme, the Office of the Seamen's Provident Fund Commissioner was established on the 9th July, 1966.

#### **BOARD OF TRUSTEES**

3. The tripartite Board of Trustees consisting of the Government appointed Chairman, three nominees of the Central Government, three representatives each of the Employers and Employees is constituted under Section 5 (1) of the Seamen's Provident Fund Act, 1966. The Director General of Shipping is the Ex-Officio Chairman of the Board of Trustees and the Seamen's Provident Fund Commissioner who is Chief Executive Officer, is the Secretary to the Board.

#### **ADMINISTRATION**

4. The Commissioner is assisted by Administrative-cum-Accounts Officer and other members of the Staff. Details of the staff given in appendix.
- 4.1 The Shipping Master, Kolkata and his staff continued to do liaison work of the Seamen's Provident Fund Organization at Kolkata for catering to the needs of Kolkata registered seafarers. Upto date information is provided to the member seafarers through the Computer Link established between Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai and Kolkata and personnel has been posted at Kolkata to ensure uninterrupted service.

#### **COVERAGE**

5. During the year under review, the Seamen's Provident Fund Scheme covered about 97334 accounts.

### YEAR AT A GLANCE

6. The following synopsis presents the performance of the Organization during the year 2020-21 and its preceding year. (Amount in Crores)

Sr. No.	Particulars	2020-21 (Rs.)	2019-20 (Rs.)
6.1. (1)	Seafarers' Member A/cs	97,334	94,142
(2)	Provident Fund Contributions received	156.09	144.20
(3)	Progressive total balance in the Provident Fund A/c (excluding Forfeiture A/c) (Investment PF + Interest Suspense + RCH)	2,355.19	2,078.13
6.2 (1)	Administrative charges Received	5.63	5.10
(2)	Rate of Administrative Charges	5%	5%
(3)	Other receipts including Interest (Admin A/c)	0.59	0.69
(4)	Grant from Government	NIL	NIL
(5)	Total Income	6.24	5.79
(6)	Administrative expenditure incurred	5.72	4.17
(7)	Surplus	0.53	1.65
6.3	<b>Final Withdrawals</b>	-	-
	(1) No. of cases paid	377	1498
	(2) Amount Paid	25.47	67.78
6.4	<b>Non Refundable Withdrawals:</b> (Under Para 58A,B,C&E of the Scheme)		
	(1) No. of cases	258	208
	(2) Amount paid	2.03	2.22
6.5	Total cases paid of all types from P.F. A/c. (6.3 & 6.4 above) Amount Paid	635 27.51	1706 70.00
6.6	Amount invested/reinvested during the year (Para 8)	390.93	225.34
6.7	Interest earned on investment during the year Decrease / increase in interest	181.13* (+) 30.24 20%	150.89** (+) 7.41 5.17%
6.8	Interest credited to members Accounts	145.55 7%#	135.08 7.25%

\* Includes accrued interest

\*\* Accrued interest for previous year excluded

# An amount of Rs. 30.00 Cr. is set off towards recoupment of investments turning bad in case of M/s DHFL & IL&FS.

### PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS

7. The receipts of Provident Fund Contributions for the preceding 5 years and the year under review are shown below:

YEAR	PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS IN RUPEES
2016-17	1,074,720,795.87
2017-18	1,225,543,809.29
2018-19	1,331,191,296.00
2019-20	1,441,953,570.48
2020-21	1,560,931,698.19

7.1 As on 31.03.2021 the total amount held in the Provident Fund Account is Rs. 2360.35 crores, the break-up of which is given below:-

Sr. No.	Head of Account	Amount (Rs.)	Percentage Total (Approx.)
1.	Provident Fund Contributions (including interest)	23,011,167,093.01	97.49
2.	Balance in the interest Suspense Account after crediting the interest to the Member's Account.	539,574,964.92	2.29
3.	Balance in Forfeiture Account	51,649,227.56	0.22
4.	Provident Fund Suspense Account (Returned Cheques/ Money orders)	1,122,652.30	0.005
	<b>TOTAL</b>	<b>23,603,513,937.79</b>	<b>100</b>

### INVESTMENTS

8. The Provident Fund amounts are invested as per pattern of investments prescribed by the Government of India from time to time. Investments/re-investments made during the year 2020-21, out of the contributions and interest proceeds were ₹ 3,909,254,684.27.

Sr.No.	Details	Book Value
1.	Central Government Securities	-
2.	State Government (SDL)	1,948,350,699.74
3.	PSU / FI Bonds	1,331,419,545.40
4.	Money Market Instruments	77,300,000.00
5.	Mutual Fund / Equity	552,184,439.13
	<b>TOTAL</b>	<b>3,909,254,684.27</b>

8.1 From the aggregate balance amount of Rs. 2360.35 crores mentioned in Para 7.1 of the Report, a sum of Rs 23,011,167,093.01 stood invested as per pattern of investment prescribed by the Government from time to time as shown in Annexure 1. An amount of Rs. 72,485,536.29 was kept in the Savings Bank Account (Provident Fund). Accrued interest receivable on investment is Rs. 552,397,449.59 A sum of Rs. 16,332.06 is lying in Saving bank of Forfeiture Account. Besides, a sum of Rs. 480,69,098.66 is kept invested from Forfeiture Account and accrued interest receivable is Rs. 3,563,796.84

8.2 A summary of collection of Provident Fund, damages and claims settled during the past 5 years and the year under review is shown in **Annexure-2**.

### INTEREST

9. The interest earned (including accrued interest) during the year on the total investments amounted to Rs. 1,811,340,206.39 as against Rs. 1,50,89,02,068.17 during the previous year. The details are at **Annexure - 3**.

9.1 As provided under Para 51 of the Scheme, the rate of interest to be credited to Member's Account is determined by the Government in consultation with the Board and credited to the individual Member's Account. The interest rate for the year 2020-21 was 7% p.a.

9.2 A sum of Rs. 539,574,964.92 is the balance in the Interest Suspense Account after crediting Rs. 1,455,480,068.00 to the members account's for the year 2020-21 and providing interest on investment on accrual basis

9.3 The rates of interest allowed to the Members for the preceding five years and the year under review are given below:-

Year	Rate of Interest
2016 - 17	9.00%
2017 - 18	8.50%
2018 - 19	8.25%
2019 - 20	7.25%
2020 - 21	7.00%

#### **REMITTANCE/RECOVERIES OF PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS (ARREARS).**

10. Most of the employers continued to remit Provident Fund Contributions within the specified period.

10.1 A systematic careful scrutiny and comparison of Provident Fund returns continued to be made manually and wherever employers failed to remit the Contributions within the stipulated time, their attention was drawn to the lapse on their part by issuing show cause notices. Where the employers failed to remit the contributions even after the issue of show cause notices, action is being taken under Section 9 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 for recovery of dues.

10.2 Besides the above recoveries, an amount of Rs.346,456.27 was outstanding from various Shipping Companies which have gone into liquidation. As per procedure, the claims were filed with the respective Official Liquidators for recovery of these amounts.

#### **DAMAGES**

11. An amount of Rs. 3,191,942.15 recovered as Damages for delayed payment of Provident Fund Contributions and Administrative Charges during the year. The position of recovery of Damages for the preceding 5 years together with the year under review is given below: -

YEAR	DAMAGES RECOVERED (Rs.)
2016 - 17	3,214,302.00
2017 - 18	1,545,816.00
2018 - 19	6,513,137.00
2019 - 20	5,497,652.39
2020 - 21	3,191,942.15

## FINAL WITHDRAWAL

12. A sum of Rs. 26.71 crores was paid to outgoing members. The total number of 377 accounts closed and amount paid to the members seafarers during the last five years and the year under review are as under: -

YEAR	NO. OF CASES	AMOUNT PAID ( Rs.)
2016 - 17	1071	596,319,065.58
2017 - 18	1288	717,880,076.09
2018 - 19	1260	761,630,097.24
2019 - 20	1498	677,847,795.48
2020 - 21	377	254,721,715.43

- 12.1 All the payment of Final withdrawal and NRW are remitted through RTGS / NEFT by the banker i.e. Canara bank wherein if error is found in the seafarers bank details account the same is rejected by the bank under intimation to this office and accordingly, after calling the bank details from the seafarer the amount is remitted again. However, the payment of old RCH cases (Return cheque) are being processed after calling the details from the seafarer and their families.

## NON – REFUNDABLE WITHDRAWAL/FINAL WITHDRAWAL

13. The Organization has geared up its machinery to ensure expeditious payment of Final Withdrawal claims and Non-Refundable Withdrawal claims to the members and / or to the next of kins of the deceased members. All the Final withdrawal / NRW application form, advance stamped receipt, mandate form and check list (i.e. list of documents required along with the application form.) Accordingly, all the forms are uploaded on the spfo website which can be downloaded from the website for claiming the amount However, in spite of the best efforts of the Organization, delay occurs in cases where nominations do not exist and/or where legal heirship reports are required from the respective revenue/police authorities or where the relevant documents are yet to be received from the seamen members or legal heirs of the deceased seamen. Seamen's Provident Fund Organization has started all remittances through RTGS/NEFT in place of cheque for instance credit in the members accounts.
- 13.1 The seamen reporting to this Office are personally informed about the website of SPFO along with their Login Id number and password for verification of their records.
- 13.2 The SPFO had successfully commissioned web server. So the seaman can view their PF account (view only) by visiting "http://spfo.gov.in". All the FW / NRW (living seafarers) claims are being settled through on the system in new software.

## FORFEITURE

14. In the Forfeiture Account total amount of Rs. 48,069,098.66 was kept invested and sum of Rs. 16,332.06 is lying in Saving Account.
- 14.1 The amount forfeited during the preceding five years and the year under report is given below:-

YEAR	Amount Forfeited Rs
2016 - 17	-
2017 - 18	-
2018 - 19	40,230.00
2019 - 20	6,303.00
2020 - 21	17,707.00

## TRANSFERS AND EXEMPTIONS

15. No cases for transfer of accounts from this Organization to the new Employers of the seamen members concerned were received during the year under review under Section 19 of Seamen's Provident Fund Act, 1966. No exemption was allowed to any employer under Section 20 (1) of the Seamen's Provident Fund Act, 1966.

## COMPUTERISATION OF PART ACCOUNTS / UNPOSTED ITEMS

16. The printing of members Account Slips for the year 2020-21 is under process. However, the seafarers can view this P. F. statement by visiting SPFO website i.e. spfo.gov.in

- 16.1 The progress made in clearance of un-posted contributions for the year was as under: -

	No. of Entries	Amount Rs.
Balance as per Last report	6313	90,648,498.43
Add: During the year 2020-21	7810	126,013,224.59
	<u>14123</u>	<u>216,661,723.02</u>
Less : Cleared during the year	1164	14,767,637.00
<b>Balance</b>	<b>12959</b>	<b>201,894,086.02</b>

## ADMINISTRATION ACCOUNT

17. The expenditure towards Administration of the Scheme is met from the 'Administrative Charges' levied at the rate of 5% on matching (Employer + Employee's share) Provident Fund Contributions collected from the Employers. The receipts of Administrative Charges and Expenditure incurred for the five years are given in **Annexure- 4**.

- 17.1. An amount of Rs. 92,706,815.46 stood as balance in the Administrative Charge Account at the end of the year. Periodical investments from the balance in Administration Account are made and a sum of Rs. 91,288,114.26 stands invested. A sum of Rs. 1,412,260.60 as on 31.03.2021 was lying in Saving Bank Accounts and a sum of Rs. 6440.60 cash in hand.

- 17.2 As on 31.03.2021, the investment of Pension / Gratuity Fund was Rs. 135,813,461.01 lying invested in Securities and a sum of Rs. 6,337.94 is lying in Saving Bank Account.

## ASSETS OF THE ORGANISATION

18. A classified summary of the assets of the Organization as required under Para 44 (3) of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 for the year under review is given in **Annexure - 5**.

## REPORT ON PROGRESSIVE USE OF RAJBHASHA

- 19 As provided under Department of Official Language O.M.No.1/24001/976-OL (A-1) dated 07/02/1977, the check points have been identified for annual programme and action has been taken to achieve physical target of making progress in the use of 'Rajbhasha' by this Office. All type of forms are translated in Hindi and are printed bilingually for day to day use. More than 80% employees are trained so far and letters received in Hindi are strictly replied in Hindi. 'Hindi Day' was also celebrated to promulgate Hindi. Hindi software Unicode has been activated in the computers and entire official work is done on it.

### **AUDIT**

20. The Principal Director of Audit, Central Mumbai has been requested to conduct the Audit of Annual Accounts of the Organization for the year 2020 – 21.

### **ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE UNITS.**

21. A vigilance unit has been functioning under the direct control of the Commissioner. During the year under review, no complaint of any nature was received by the unit, which leaves no room for delays in disposal of claims.

### **RIGHT TO INFORMATION (RTI) CASES**

22. RTI Applications are being disposed off within the stipulated time and no Application pending during the F. Y. 2020-21

### **ACKNOWLEDGEMENTS**

23. The Board places on record its appreciation for the assistance and co-operation received from the Ministry of Port, Shipping and Waterways, New Delhi, Directorate General of Shipping, Shipping Masters, Directors of Seamen's Employment Offices, District Collectors, Police Commissioners, Superintendents of Police, the Organizations of the Employers and Representatives of Seafarers'.

The Office of the Commissioner, Seamen's Provident Fund has continued to achieve considerable success in all directions, speedy payments and collections of Provident Fund moneys. The Board also places on record its appreciation for the dedicated services rendered by the Officers and Staff of the Organization at all levels during the year.



**(Surendra Kumar)**  
Secretary,  
Board of Trustees,  
Seamen's Provident Fund,  
Mumbai.

Appendix  
(Para 4)

**TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES IN THE SEAMEN'S  
PROVIDENT FUND ORGANIZATION**

Sr. No.	Group	Total Strength	Total No. of Employees in position	SC Employees	ST Employees	OBC Employees
1	2	3	4	5	6	7
1	'A'	2	1	-	-	-
2	'B' (non-Gazetted)	1	-	-	-	-
3	'C'	28	10	1	-	2
4	'D'	5	1	1	-	
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

**SUMMARY OF AGGREGATE INVESTMENTS AS ON 31.03.2021**

<b>Pattern of Investment</b>	<b>Face Value</b>	<b>Book Value</b>
1. Central Govt. Securities	2,104,280,000.00	2,116,830,816.10
2. State Govt./State Guaranteed Securities	9,530,800,000.00	9,647,139,960.64
3. PSU Bonds	6,805,150,000.00	6,551,388,088.50
4. Special Deposits	3,419,353,488.64	3,419,353,488.64
5. Long Term TDR	124,158,000.00	124,158,000.00
6. Money Market Instruments	773,00,000.00	773,00,000.00
7. Mutual Fund	1,074,996,719.13	1,074,996,719.13
<b>Grand Total</b>	<b>23,136,038,207.77</b>	<b>23,011,167,093.01</b>

**Annexure – 2  
(Para 8.2)**

**SUMMARY OF COLLECTION OF PROVIDENT FUND, DAMAGES AND CLAIMS PAID.**

Year	Total Amount of PF Cont Rece.	Total amount of Damages Recovered	Claims paid (F.W./N.R.W)	Claims Percentage of P.F. Recd in Col, (2)
1.	2.	3.	4.	5.
	Rs.	Rs.	Rs.	
2016-17	1,074,720,795.87	3,214,302.00	616,174,065.58	57.33%
2017-18	1,225,543,809.29	1,545,816.00	741,298,676.09	60.49 %
2018-19	1,331,191,296.00	6,513,137.00	795,027,997.24	59.72%
2019-20	1,441,953,570.48	5,497,652.39	700,009,551.48	48.55%
2020-21	1,560,931,698.19	3,191,942.15	275,080,913.43	17.62%

**Annexure -3  
(Para 9)**

**POSITIONS OF INVESTMENTS AND INTEREST EARNED FROM THE TOTAL  
INVESTMENTS DURING THE PAST 5 YEARS AND THE YEAR UNDER REVIEW.**

<b>Year</b>	<b>Face Value</b>	<b>Book Value</b>	<b>Interest Earned</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
2016-17	14,466,433,890.44	14,615,325,307.86	1,221,267,637.84
2017-18	16,156,865,980.44	16,325,285,376.24	1,307,169,079.44
2018-19	18,067,199,910.44	18,226,551,463.15	1,434,786,442.17
2019-20	20,024,419,578.64	20,226,693,942.85	1,508,902,068.17 #
2020-21	23,136,038,207.77	23,011,167,093.01	1,811,340,206.39 #

# including accrued interest

**STATEMENT SHOWING YEAR WISE RECEIPTS OF PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIVE CHARGES AND EXPENDITURE FROM 2016 - 2017 TO 2020 - 2021**

Year	Rate of Administrative charges on the total Contribution	Provident Fund Contribution (includes Voluntary /Ex-gratia and Pension annuity )	Administrative Charges on matching P.F. Contribution	Expenditure	Interest earned on investment of Administrative Charges
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
2016-17	5%	1,074,720,795.87	35,544,997.14	29,617,356.00	4,993,063.10#
2017-18	5%	1,225,543,809.29	42,067,303.50	37,299,318.42	6,279,917.63#
2018-19	5%	1,331,191,296.00	46,132,678.55	37,497,904.07	6,058,403.69#
2019-20	5%	1,441,953,570.48	50,999,572.73	41,675,057.43	6,571,648.58#
2020-21	5%	1,560,931,698.19	56,388,315.93	57,187,001.02	5,444,293.20#

# Includes accrued interest

**CLASSIFIED SUMMARY OF THE ASSETS OF THE SEAMEN'S  
PROVIDENT FUND ORGANISATION FOR THE YEAR  
ENDED 31ST MARCH, 2021**

	<b>Class of Assets</b>	<b>Book value as on 31st March, 2021 as per cost price (depreciation disallowed)</b>
<b>1.</b>	<b>Seamen's Provident Fund Account :</b>	<b>Rs.</b>
	1. Government of India Securities	2,116,830,816.10
	2. State Government / State Guaranteed Securities	9,647,139,980.64
	3. PSU bonds	6,551,388,088.50
	4. Special Deposits	3,419,353,488.64
	5. Long Term TDR	124,158,000.00
	6. Money Market Instruments	773,00,000.00
	7. Mutual Funds	1,074,996,719.13
	<b>TOTAL</b>	<b>23,011,167,093.01</b>
<b>2.</b>	<b>Cash at Bank</b>	
<b>I.</b>	<b>i) State Bank of India, Mumbai</b>	
	ii) Canara Bank (Syndicate bank)	50,430,946.24
	iii) State Bank of India CAG Branch (Investment A/C)	22,054,590.05
<b>II.</b>	<b>Administration Account :</b>	
	Amount invested	91,288,114.26
	Cast at Bank	
	State Bank of India.(Admin A/C) Mumbai	26,653.28
	Bank of India	6646.44
	Canara Bank (Syndicate bank)	1,378,960.88
	Cash in hand	6,440.60
<b>III.</b>	<b>Value of Assets :</b>	
	1. Office Premises	79,227.46
	2. Furniture and Fixtures	178,651.36
	3. Office Equipment's	120,243.02
	4. Computer	503,510.39
	5. Legal Software	34,465.08
	6. Advance payment to CPWD for repair of office premises	8,100,000.00
	7. Advance payment to CPWD for Projector in F. Y. 2019-20	369,338.00
	8. Provision for payment of CPWD for repair of office premises 2019-20	2,947,117.00
	9. Provision for payment of CPWD for repair of office premises in 2020-21	593,457.00
	10. Advance payment to NICSI for development of new software	360,000.00
	11. Advance payment to NICSI for development of new software 2020-21	540,000.00

\* The value of assets is based on the cost of WDV of the Articles.

**Sd/**  
**(Surendra Kumar),**  
Commissioner  
Seamen's Provident Fund,  
Mumbai



# नार्विक भविष्य निधि



## नार्विक भविष्य निधि संगठन

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन)

नार्विक भविष्य निधि स्कीम, 1966 की कार्यप्रणाली पर

# प्रचलनवाँ वार्षिक लेखा-जोखा 2020-21

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9, वालचंद हिराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई -400 001.

फैक्स : 022-22616202 दूरभाष : 22616925 / 22662044



**केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं  
(नॉन - प्रॉफिट संगठनों और समान संस्था)  
के लिए  
वित्तीय विवरण**



## विषय

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (सीएजी).....	6 - 10
तुलन पत्र .....	11 - 12
आय और व्यय लेखा.....	13 - 14
उपरोक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ .....	15 - 41
प्राप्ति और भुगतान का विवरण .....	42 - 43

## नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखा-जोखा पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की अलग ऑडिट रिपोर्ट

टिप्पणी	उत्तर
<p>1. हमने नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई (एसपीएफओ) की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की संलग्न बैलेंस शीट का ऑडिट किया है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की आय और व्यय के खाते को नाविक भविष्य निधि योजना 1966 के पैरा 48 के साथ अध्ययन किया है, नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में अधिसूचित किया गया था कि इसके वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्रबंधन की है और हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।</p>	<p>जी, नोट कर लिया है।</p>
<p>2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धति, लेखांकन के मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैंग) की टिप्पणियां शामिल हैं। अधिनियमों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्ठावन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर ऑडिट अवलोकन, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्ट / कैंग की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है।</p>	<p>जी, नोट कर लिया है।</p>
<p>3. हमने सामान्य तौर पर भारत में अपनाए गए लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर अपना ऑडिट किया है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम योजना बनाएँ और युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करते हुए ऑडिट करें चाहे वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सामग्री गलत विवरणों से मुक्त हो। ऑडिट में, वित्तीय विवरणों को समग्र प्रस्तुतियों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राकृतकों और उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों का भी मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा ऐसा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करती है।</p>	<p>जी, नोट कर लिया है।</p>
<p>4. हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर यह रिपोर्ट करते हैं कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास में हमारे ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।</li> <li>इस रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई बैलेंस शीट और इससे होने वाली आय और व्यय खातों को नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा 47 के अंतर्गत न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।</li> <li>हमारी राय में नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा-47 के तहत आवश्यक वही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित पुस्तकों के माध्यम से रख-रखाव किया गया है, जहां तक ऐसी पुस्तकों का हमारी जांच से स्पष्ट होता है।</li> <li>हम यह भी उल्लेख करते हैं कि :</li> </ol>	<p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p>
<p>ए. बैलेंस शीट</p> <p>ए.1 निर्धारित / अक्षय निधि (अनुसूची -3) रु. 2,370.49 करोड़</p> <p>नाविक भविष्य निधि संगठन पेंशन एवं (ग्रेजुएटी फंड) उपदान निधि रु. 14.69 करोड़</p> <p>बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 31 मार्च, 2021 को पेंशन निधि, ग्रेजुएटी फंड और छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता रु. 18.45 करोड़ थी। जबकि 31 मार्च, 2021 को फंड बैलेंस केवल रु. 14.69 करोड़ था जो वास्तविक मांग निधि से रु. 3.76 करोड़ कम थी।</p> <p>प्रबंधन ने कहा है कि हम घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह मुद्दा वर्ष 2012-2013 से अलग ऑडिट रिपोर्ट में उठाया जा रहा है।</p>	<p>इस मुद्दे को वर्ष 2012-13 से एसएआर में उठाया जा रहा है, उस समय नाविक भविष्य निधि संगठन के पेंशन और ग्रेजुएटी फंड में 1.67 करोड़ रुपये शेष थे। उस समय ना. भ. नि. सं. में बीमांकिक मूल्यांकन कर्ता की नियुक्ति नहीं हुई थी, इसके बाद मेसर्स ग्लोबल रिस्क कंसल्टेंट को वर्ष 2016-2017 में बीमांकिक मूल्यांकन कर्ता के रूप में नियुक्त किया गया।</p> <p>बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट वित्त वर्ष 2015-2016 के अनुसार ना. भ. नि. सं. के अधिकारियों / कर्मचारियों को देयता राशि 16.60 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 के किए उपलब्ध फंड राशि रुपये 5.82 करोड़ थी। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया।</p>

## टिप्पणी

## उत्तर

जाता है कि वित्त वर्ष 2015-2016 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंशन और ग्रेज्युटी खाते में संचित निधि की तुलना में रुपये 10.78 करोड़ की राशि कम थी।

इस संबंध में दिनांक 26.05.2017 के पत्र सं 511/0006/2017 के अंतर्गत रु. 11.23 करोड़ की एक मुश्त अनुदान राशि के लिए मंत्रालय से संपर्क किया गया। चूंकि मंत्रालय द्वारा उपरोक्त अनुरोध को संसाधित करने में देरी हुई थी, न्यासी बोर्ड ने सक्रिय रूप से कार्य करते हुए यह विनिश्चय किया कि अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा प्रशासनिक प्रभारों से उपलब्ध निधियों में घाटे के अंतर को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

अंतरित की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

2012-2013	-	0.35 करोड़
2013-2014	-	0.35 करोड़
2014-2015	-	0.55 करोड़
2015-2016	-	1.10 करोड़
2016-2017	-	0.98 करोड़
2017-2018	-	1.00 करोड़
2018-2019	-	1.32 करोड़
2019-2020	-	1.525 करोड़
2020-2021	-	2.92 करोड़
2021-2022	-	2.94 करोड़
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>13.035 करोड़</b>

वर्तमान में हमने रु. 13.04 करोड़ के अंतर को कम किया है।

वित्त वर्ष 2020-2021 के अंत में कर्मचारी पेंशन और ग्रेज्युटी फंड में रुपये 14.69 करोड़ की शेष राशि थी। पिछले कुछ वर्षों में ना.भ.नि.सं. अपने वित्त वर्ष 2015-16 के रु. 16.60 करोड़ के घाटे को वित्त वर्ष 2020-21 में रु. 3.72 करोड़ तक कम करने में सफल रहा है।

आगे यह विनिश्चय किया गया है कि पेंशन और ग्रेज्युटी खाते में निम्नानुसार राशि अंतरित की जाएगी

वित्त वर्ष	2020-2021	रु. 2.02 करोड़
वित्त वर्ष	2021-2022	रु. 2.94 करोड़ (बजट प्रस्तावित है)
वित्त वर्ष	2022-2023	रु. 1.67 करोड़

इस तरह रु. 3.76 करोड़ की कमी उपरोक्त समयमान रीति से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ए.2 नियत परिसंपत्तियाँ (अनुसूची - 8) रु. 0.09 करोड़

चालू पूंजीगत कार्य - रु. 0.159 करोड़

ए.2.1 नाविक भविष्य निधि संगठन के कार्यालय परिसर के नवीकरण के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी के पास जमा की गई रु. 0.73 करोड़ की राशि को चालू संपत्ति ऋण और अग्रिम के अंतर्गत बुक किया गया था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अगस्त 2021 तक रु. 0.82 करोड़ रुपए की समग्र राशि का काम कर दिया है और

## टिप्पणी

शेष राशि की मांग की है। इस प्रकार रु. 0.73 करोड़ के अग्रिम को चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत समायोजित किया जाना चाहिए, रु. 0.09 करोड़ राशि को देयता को चालू देनदारियों के तहत दर्ज किया जाना चाहिए और 0.82 करोड़ की राशि को देयता को चालू पूंजीगत कार्य के अधीन दर्ज किया जाना चाहिए था।

तथापि 31 मार्च, 2021 को किए गए उपर्युक्त कार्य के गैर-लेखांकन के परिणाम स्वरूप स्थायी परिसंपत्ति - चालू पूंजीगत कार्य रु. 0.82 करोड़ कम तथा चालू देनदारियों को रु. 0.09 करोड़ से कम और चालू परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम को रु. 0.73 करोड़ से अधिक बताया गया है।

ए.2.2 राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) के माध्यम से नए सॉफ्टवेयर के विकास के लिए व्यय की गई रु. 0.09 करोड़ की राशि उपरोक्त में शामिल नहीं की गई है। चूंकि सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य प्रगति पर है। व्यय की चालू पूंजीगत कार्य के अधीन गणना की जानी चाहिए थी।

उपरोक्त के परिणाम स्वरूप चालू परिसंपत्तियाँ ऋण और अग्रिम में 0.09 करोड़ रुपये अधिक और स्थायी परिसंपत्ति (वर्तमान कार्य प्रगति पर) में रु. 0.09 करोड़ की राशि कम दर्शाई गई है।

उपर्युक्त मुद्दा वर्ष 2019-20 से पृथक ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया जा रहा है।

ए.3 निर्धारित अक्षय निधि से निवेश (अनुसूची - 9) - रु. 2320.34 करोड़ डिबेंचर तथा बॉन्ड : रु. 655.14 करोड़

ए.3.1 नाविक भविष्य निधि संगठन ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एन.सी.डी.) में 107.36 करोड़ का निवेश किया था। जिसमें से समसुगर्व परियोजना विकल्प का उपयोग करते हुए रु. 3 करोड़ का परिशोधन कर लिया गया था। न्यासी बोर्ड (मार्च, 2021) की बैठक में इस बात की संकल्पना पर विचार किया गया था कि डी.एच.एल. की समाधान योजना अंतर्गत मूलधन की लगभग 43 प्रतिशत राशि का भुगतान कराया जाए और मूलधन की शेष बकाया राशि को बट्टे में डाला जाए।

तदनुसार रु. 22.96 करोड़ नकद प्राप्त हुए। सितंबर 2021 (अर्थात् लेखा को अंतिम रूप देने से पहले) में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 6.75 प्रतिशत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के रूप में 27.62 करोड़ रूपए प्राप्त हुए थे। शेष रूपए 53.78 करोड़  $\{(107.36 - (3 + 22.96 + 27.62))\}$  की पूंजीगत हानि को बट्टे खाते में डाला गया है। फिर भी, उक्त निवेश के संबंध में नाविक भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2020-21 के लेखा में केवल 25.51 करोड़ रूपए की हानि को बट्टे खाते में डाला है।

इसके परिणामस्वरूप अधिशेष को 28.27 करोड़ (53.78 - 25.51) रूपए से अधिक और निवेश को 28.27 करोड़ रूपए से अधिक बताया गया है।

इस मुद्दे को वर्ष 2018-19 से पृथक ऑडिट रिपोर्ट में उठाया जा रहा है।

## उत्तर

जी, आगे अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।

सॉफ्टवेयर अभी तक एन.आई.सी.एस.आई. अथवा उसके विक्रेता द्वारा वितरित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर की लागत की गणना करना संभव नहीं है। एन.आई.सी.एस.आई. से कार्य समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सॉफ्टवेयर की लागत को नियत परिसंपत्ति में शामिल किया जाएगा।

न्यासी मण्डल की 16 मार्च, 2021 को 138 वीं बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि अगले दो वित्त वर्षों में (डीएचएफएल और आईएल एंड एफएल) खराब निवेश के लिए 60-70 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाए। उपरोक्त के अनुसार वर्ष 2020-21 में खराब निवेश के बट्टे-खाते में डालने के लिए 30 करोड़ रूपए की राशि का आंशिक प्रावधान किया गया है। जिसमें से वित्त वर्ष 2020-21 में रु. 25.50 करोड़ डीएचएफएल से बट्टे-खाते डाले गए हैं। इसके बाद, 29.09.2021 को डीएचएफएल का अंतिम निपटान की कुल पूंजीगत हानि रु. 53.79 करोड़ है।

पूंजीगत हानि विवरण निम्नानुसार

विवरण	राशि (करोड़ रूपए में)
29.09.2021 (वित्त वर्ष 2021-22) को कुल पूंजीगत हानि	रु. 53.78 करोड़
घटाया: वित्त वर्ष 2020-21 पूंजीगत हानि को कम करने के लिए प्रावधान	(-) रूपए 25.51 करोड़
कुल	रु. 28.27 करोड़

चूंकि डीएचएफएल का अंतिम निपटान दिनांक 29.09.2021 को अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 में किया गया है, शेष पूंजीगत हानि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में दर्ज की जाएगी।

न्यासी मण्डल की 138 वीं बैठक में, नाविक भविष्य निधि संगठन ने अगले दो वित्त वर्षों में आईएल एंड एफएल के खराब निवेश के लिए 58 प्रतिशत राशि का प्रावधान करने का निर्णय लिया है।

टिप्पणी	उत्तर
<p>नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के समक्ष (फरवरी, 2019) की कार्यवाही के अनुसार दो आइएल एंड एफएस संस्थाओं (आइएल एंड एफएस लिमिटेड और आइएल एंड एफएस फाइनेशियल सर्विसेज) को आइएल एंड एफएस कंपनी समूह के मामलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा लाल श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि ऐसी संस्थाएं बड़े और सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को भी भुगतान नहीं कर पाती है।</p> <p>नाविक भविष्य निधि संगठन ने आई. एल. एंड एफ. एस. संस्थाओं के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में निवेश के मूल्य में कमी लान की दिशा में पूर्ण प्रावधान के बजाय 2020-21 के लेखा में केवल 4.49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप निवेश रु. 13.81 (18.30-4.49) करोड़ अधिक और अधिशेष को रुपए 13.81 करोड़ को अधिक बताया गया है।</p> <p>उपर्युक्त मुद्दे का वर्ष 2019-20 से पृथक ऑडिट रिपोर्ट में उठाया जा रहा है।</p> <p><b>बी. प्रबंधन के लिए पत्र</b></p> <p>जिन कामियों को अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन विन्दुओं पर सुधारात्मक/उचित कार्रवाई करने के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के जरिये नाविक भविष्य निधि संगठन की जानकारी में लाया गया है।</p> <p>(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अपनी टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दर्शाई गई बैलेंस शीट, आय - व्यय खाते और प्राक्तियों और भुगतान खाते लेखा बहियों के अनुसार है।</p> <p>(vi) हमारी राय और हमारी उचित जानकारी और दी गई सूचनाओं के आधार पर, हम ने उक्त वित्तीय विवरणों, लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों को साथ-साथ पढ़ा है और जो इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध - 1 में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन हैं। समान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण के अनुसार यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट दी गई है।</p> <p>(ए) जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है, यह 31 मार्च 2021 तक की नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई की बैलेंस शीट से संबंधित है; तथा</p> <p>(बी) जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है यह आय और व्यय खाते और उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष से संबंधित है।</p>	<p>तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में रु. 4.49 करोड़ निर्धारित किए हैं और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में रु. 4.49 करोड़ का समायोजन किया जाएगा।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>स्थान : मुंबई दिनांक : 05 जुलाई, 2022</p> <p>ह/- (सुरेन्द्र कुमार) आयुक्त नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई</p>
<p>स्थान : मुंबई दिनांक : 28 जून, 2022</p> <p>भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और को और से</p> <p>ह/- (पी. वी. हरीकृष्ण) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा नौवहन, मुंबई</p>	

## अनुबंध - 1

टिप्पणी	उत्तर
<p>1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता : वर्ष 2019-20 की आंतरिक लेखा-परीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा कराई गई थी ।</p> <p>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता : निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है :- वसूली / अंशदान की राशि को व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते में इंद्रराज करने के लिए जमा (जिनका अनुसूची 25 के क्रम संख्या 6 पर अइंद्रराज (अन-पोस्टेड) के रूप में उल्लेख किया गया है ।) हो रही थी, 31 मार्च, 2020 को इसकी राशि रु. 20.19 करोड़ की हो गई है ।</p> <p>3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति : वर्ष 2020-21 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कराया गया है । प्रबंधन ने कार्यालय परिसर की चल रही मरम्मत को कारण बताया है ।</p> <p>4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति : नाविक भविष्य निधि संगठन पर वस्तु-सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन लागू नहीं होता है चूंकि इनके पास कोई वस्तु सूची नहीं है ।</p> <p>5. देन-दारियों के भुगतान में नियमितता : नाविक भविष्य निधि संगठन अपने सांविधिक भुगतानों को अविवादित रूप से नियमित तौर पर कर रहा है ।</p> <p>स्थान : मुंबई दिनांक : 28 जून, 2022</p>	<p>जी, नोट कर लिया है ।</p> <p>नियोक्ताओं द्वारा नाविकों के निजी विवरण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण निजी भविष्य निधि खातों में (अन-पोस्टेड आइटम) इंद्रराज करना लंबित हो गया है । अइंद्रराज मंदों की संख्या को कम करने के लिए इस दिशा में उचित कार्यवाई की जा रही है ।</p> <p>कार्यालय परिसर मरम्मत अधीन था और इस दौरान सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा फर्नीचर एवं स्थिर वस्तुओं की सुपदर्शी की जानी शेष थी । ऐसी स्थिति में सभी स्थायी परिसंपत्ति मंदों का सत्यापन कराया जाना संभव नहीं था । शेष सभी वस्तुओं का आंतरिक लेखा परिक्षक द्वारा सत्यापित किया गया है । स्थायी परिसंपत्तियों का पूर्ण प्रत्यक्ष सत्यापन सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा कार्यालय परिसर सुपुर्द किए जाने के बाद ही संभव होगा ।</p> <p>जी, नोट कर लिया है ।</p> <p>जी, नोट कर लिया है ।</p> <p>ह/- (सुरेन्द्र कुमार) आयुक्त नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई</p> <p>स्थान : मुंबई दिनांक : 05 जुलाई, 2022</p>

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
31 मार्च 2021 का तुलन पत्र**

( राशि ₹ में )

संचय निधि / पूँजीगत निधि और देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
संचय निधि / पूँजीगत निधि	1	112,202,171.54	109,022,095.48
आरक्षित और अधिशेष	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चिह्नित / स्थायी निधि	3	23,704,901,984.23	21,064,123,905.78
सुरक्षित ऋण और उधार	4	कुछ नहीं	कुछ नहीं
असुरक्षित ऋण और उधार	5	कुछ नहीं	कुछ नहीं
आस्थगित क्रेडिट देयताएँ	6	1,122,652.30	1,122,652.30
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	154,222,540.68	36,175,110.86
<b>कुल</b>		<b>23,972,449,348.75</b>	<b>21,210,443,764.42</b>

परिसंपत्तियाँ	अनुसूची	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
नियत परिसंपत्तियाँ	8	916,097.31	506,557.80
निवेश - चिन्हित तथा स्थायी निधि से	9	23,203,432,934.17	20,379,289,807.01
निवेश - अन्य	10	88,888,114.26	77,026,772.25
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	679,212,203.01	753,620,627.36
विविध व्यय (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में डाला या समायोजित न किया गया हो ।)		कुछ नहीं	कुछ नहीं
<b>कुल</b>		<b>23,972,449,348.75</b>	<b>21,210,443,764.42</b>

ह/ -  
अनुभाग प्रभारी

ह/ -  
कार्यालय अधीक्षक

ह/ -  
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/ -  
प्रशासनिक / सह लेखाधिकारी

ह/ -  
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई**

**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा**

( राशि ₹ में )

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
बिक्री / सेवा से आय	12	56,453,139.88	51,199,532.76
अनुदान / आर्थिक सहायता	13	कुछ नहीं	कुछ नहीं
शुल्क / अंशदान	14	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निवेश से आय (विहित निधि के निवेश से आय)	15	9,910,961.68	343,833.89
अधिकार शुल्क, प्रकाशन आदि से आय	16	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्राप्त ब्याज	17	(4,466,668.48)	6,227,814.69
अन्य आय	18	59,644.00	364,351.00
पक्के माल और जारी कार्यों के स्टॉक में वृद्धि / कमी	19	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<b>कुल(ए)</b>		<b>61,957,077.08</b>	<b>58,135,532.34</b>

व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
स्थापना व्यय	20	49,218,822.00	36,912,282.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	7,599,186.14	4,634,415.00
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय			
परिपक्वता पूंजी पर नुकसान	22	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कर की अतिरिक्त सुविधा		-	-
ब्याज व्यय / ऋण मुक्ति प्रतिभूतियाँ	23	1,136.99	1,136.81
मूल्य ह्रास (वर्ष के अन्त में अनुसूची 8 के संबंध में कुल रकम)		367,855.89	120,264.30
<b>कुल(बी)</b>		<b>57,187,001.02</b>	<b>41,668,098.11</b>
व्यय के ऊपर आय की अधिकता के कारण शेष (ए-बी)		4,770,076.06	16,467,434.23
विशेष आरक्षित निधि में अन्तरण			
सामान्य आरक्षित से /में अन्तरण			
शेष राशि के अधिशेष / घाटे को संचय निधि / पूंजीगत निधि में अन्तरण			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24	-	-
आकस्मिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25	-	-

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
 31 मार्च 2021 के तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ  
 ( राशि ₹ में )**

अनुसूची 1- संचय निधि / पूँजीगत निधि	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	109,022,095.48	92,554,661.25
जोड़ें : संचय निधि /पूँजीगत निधि में अंशदान	(1,590,000.00)	-
जोड़ें /घटाएँ):आय एवं व्यय शेष (व्यय)के शेष का अन्तरण	4,770,076.06	16,467,434.23
वर्ष के अन्त में शेष राशि		
	112,202,171.54	109,022,095.48
<b>अनुसूची 2- आरक्षित और अधिशेष और अन्य निधि</b>		
<b>1. पूँजीगत आरक्षित : नाविक भविष्य निधि</b>	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
<b>2. पुनर्वावलोकन आरक्षित :</b>	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पिछले लेखा के अनुसार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
<b>3. विशेष आरक्षित : कर्मचारी भविष्य निधि</b>	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
<b>4. सामान्य आरक्षित :</b>		
आय और व्यय लेखा		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
<b>5. ब्याज उचंत् खता</b>		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
<b>कुल</b>		

ह/ - अनुभाग प्रभारी  
ह/ - कार्यालय अधीक्षक  
ह/ - सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी  
ह/ - प्रशासनिक सह लेखाधिकारी  
ह/ - आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)**  
**नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई**  
**31 मार्च 2021 के तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**  
**( राशि ₹ में )**

अनुसूची 3 चिन्हित / स्थायी निधि	चालू वर्ष 2020-21		पिछला वर्ष 2019-20
	जोड़	घटाएँ	
ए) ज़ब्त निधि, नाविक भ.नि., कर्मचारी भ.नि. एवं कर्मचारी पेंशन उपदान खाता			
i) नाविक भ.नि. मुख्य खाता का प्रारंभिक शेष	20,340,753,508.51		18,254,031,985.49
जोड़ : वर्ष के दौरान	3,044,016,444.13		2,811,578,710.72
घटाएँ : वर्ष के दौरान	429,577,385.04		724,857,187.70
<b>कुल :</b>		<b>22,955,192,567.60</b>	<b>20,340,753,508.51</b>
ii) नाविक भ.नि. ज़बती खाता	48,538,201.08		45,351,665.62
जोड़ : वर्ष के दौरान	4,339,529.84		5,323,589.86
घटाएँ : वर्ष के दौरान	1,228,503.36		2,137,054.40
<b>कुल :</b>		<b>51,649,227.56</b>	<b>48,538,201.08</b>
iii) नाविक भ.नि. कर्मचारी खाता	9,989,645.73		11,493,073.01
जोड़ : वर्ष के दौरान	4,439,100.98		4,220,293.15
घटाएँ : वर्ष के दौरान	2,893,420.41		5,723,720.43
<b>कुल :</b>		<b>11,535,326.30</b>	<b>9,989,645.73</b>
iv) नाविक भ.नि. कर्मचारी पेंशन उपदान	111,278,131.40		95,808,788.22
जोड़ : वर्ष के दौरान	49,865,788.90		31,717,067.49
घटाएँ : वर्ष के दौरान	14,194,022.45		16,247,724.31
<b>कुल</b>		<b>146,949,897.85</b>	<b>111,278,131.40</b>
बी) निधियों का जोड़			
i) डोनेशन / अनुदान	-	कुछ नहीं	-
ii) निधि के निवेश से प्राप्त आय	-	कुछ नहीं	-
iii) अंशदान से अंतरण अन्य योग	-	कुछ नहीं	-

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
 31 मार्च 2021 के तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ ( राशि ₹ में )**

अनुसूची 3 चिह्नित / स्थायी निधि	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
सी) ब्याज उंचत खाता		
प्रारंभिक जमा	553,564,419.06	459,815,245.40
जोड : वर्ष के दौरान	2,287,000,236.26	1,930,736,961.27
घटाएँ : वर्ष के दौरान	(2,300,989,690.40)	(1,836,987,787.61)
कुल : ए + बी + सी	23,704,901,984.23	553,564,419.06
डी) उपयुक्ता / निधियोंके प्रयोजनों के प्रति व्यय		21,064,123,905.78
i) पूंजीगत व्यय		
नियत		
अन्य		
कुल		
ii) राजस्व व्यय		
वेतन मजदूरी भत्ता आदि		
किराया		
अन्य प्रशासनिक व्यय		
कुल डी		
<b>वर्ष समाप्त होने पर निवल शेष (ए + बी + सी + डी)</b>	<b>23,704,901,984.23</b>	<b>21,064,123,905.78</b>

ह/ - अनुभाग प्रभारी  
 कार्यालय अधीक्षक  
 ह/ - सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी  
 प्रशासनिक सह लेखाधिकारी  
 ह/ - आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)**  
**नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई**  
**31 मार्च 2021 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**  
**( राशि ₹ में )**

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष 2020-21		पिछला वर्ष 2019-20	
	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1) केंद्र सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2) राज्य सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3) वित्तीय विवरण				
ए) अवधि ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) देय प्रोद्भूत ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. बैंक				
ए) अवधि ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
- देय प्रोद्भूत ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
- देय प्रोद्भूत ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5) अन्य संस्था और एजेंसियाँ				
6) डिबेंचर्स और बॉण्डस्				
7) अन्य (निर्दिष्ट)				
	कुल			
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि				

ह/-

अनुभाग प्रभारी

ह/-

कार्यालय अधीक्षक

ह/-

सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-

प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-

आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ  
 ( राशि ₹ में )**

अनुसूची 5, असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. केंद्र सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. राज्य सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. वित्तीय संस्थाएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ए) अर्वाधि ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. बैंक :	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ए) अर्वाधि ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7. अर्वाधि जमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8. अन्य (निर्दिष्ट)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अनुसूची 6, आस्थगित क्रेडिट देयताएँ	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
ए) पूँजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियाँ		
बी) अन्य : रिटर्न चैक खाता		
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार	1,122,652.30	1,122,652.30
जोड़े : वर्ष के दौरान	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान भुगतान	-	-
<b>कुल</b>	<b>1,122,652.30</b>	<b>1,122,652.30</b>
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

अनुभाग प्रभारी

कार्यालय अधीक्षक

सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ  
 ( राशि ₹ )**

अनुसूची 7 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	चालू वर्ष 2020-21		पिछला वर्ष 2019-20	
	ए)	बी)	ए)	बी)
ए) वर्तमान देयताएँ				
1. स्वीकृतियाँ				
2. विविध लेनदार	148,648,189.68		20,319,681.91	
ए) माल के लिए				
बी) अन्य	3,329,169.00		2,929,678.00	23,249,359.91
3. प्राप्त अग्रिम	-		-	
4. प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं				
ए) सुरक्षित ऋण/उधार				
बी) असुरक्षित ऋण/उधार				
5. सांविधिक देयताएँ				
ए) कालातीत				
बी) अन्य				
6. अन्य वर्तमान देयताएँ	655,182.00		12,925,750.95	12,925,750.95
<b>कुल (ए)</b>			<b>152,632,540.68</b>	<b>36,175,110.86</b>
बी) प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
2. उपदान				
3. निर्वतन अधिवर्षिता				
4. संचित अवकाश नगदीकरण				
5. व्यापार अनुज्ञाप्ती / दावा				
6. अन्य संदेहास्पद निवेश	1,590,000.00			
<b>कुल (बी)</b>			<b>1,590,000.00</b>	
<b>कुल (ए + बी)</b>			<b>154,222,540.68</b>	<b>36,175,110.86</b>

ह/- अनुभाग प्रभारी  
 ह/- कार्यालय अधीक्षक  
 ह/- सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी  
 ह/- प्रशासनिक सह लेखाधिकारी  
 ह/- आयुक्त

**31 मार्च 2021 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ ( राशि ₹ में )**

अनुसूची 8 - नियत परिसंपत्तियाँ	ग्राम ब्लॉक					मूल्य हास	निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यांकन	चालू वर्ष के अंत में		पिछले वर्ष के अंत में	
विवरण								
ए) नियत परिसंपत्तियाँ								
1. भूमि								
ए) पूर्ण स्वामित्व								
बी) पट्टा भूमि								
2. भवन								
ए) पूर्ण स्वामित्वपर								
बी) पट्टे भूमिपर								
सी) स्वामित्व फ्लैट्स और परिसर	88,030.51			88,030.51		8,803.05	79,227.46	88,030.51
डी) भूमिपर सुपरस्ट्रक्चर (स्वामित्वपर नहीं)								-
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण								-
4. वाहन								-
5. फर्निचर और फिक्चर्स	198,501.51			198,501.51		19,850.15	178,651.36	198,501.51
6. कार्यालय उपकरण	141,462.38			141,462.38		21,219.36	120,243.02	141,462.38

7. संगणक / संबंधित भाग	32,609.97	777,395.40		810,005.37	306,494.98	503,510.39	32,609.97
8. विद्युत संस्थापन							-
9. पुस्तकालय पुस्तके							-
10. नलकूप और जलपूर्ति							-
11. अन्य नियत परिसंपत्तियाँ							-
12. कानूनी सॉफ्टवेअर	45,953.43	-		45,953.43	11,488.35	34,465.08	45,953.43
चालू वर्ष / पिछला वर्ष का कुल							
कुल	506,557.80	777,395.40		1,283,953.20	367,855.89	916,097.31	506,557.80

\* टिप्पणी : संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियमन 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्य ह्रास की गणना की गयी है तथा कटौती मूल्य ह्रास पद्धतिनुसार मूल्य ह्रास किया गया है ।

ह/ - कार्यालय अधीक्षक ह/ - प्रशासनिक / लेखाधिकारी ह/ - प्रशासनिक सह लेखाधिकारी ह/ - आयुक्त  
अनुभाग प्रभारी

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

31 मार्च 2021 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

( राशि ₹ में )

अनुसूची 9- चिह्नित / अक्षय निधि से निवेश :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	5,540,331,145.90	5,544,138,603.77
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (राज्य)	9,649,339,980.64	7,896,152,555.86
3. शेअर्स (युचुअल फंड्स)	1,074,996,719.13	-
4. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स	6,551,388,088.50	5,943,915,557.38
5. मुद्रा बाजार इन्स्ट्रुमेंट्स	77,300,000.00	-
6. आर्थिक सहायता और जॉइंट वेंचर	312,277,000.00	997,283,090.00
7. अन्य अवधी जमा तथा मुद्रा बाजार इन्स्ट्रुमेंट्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : निवेश के मूल्य के ह्रास के लिए प्रावधान	(2,200,000.00)	(2,200,000.00)
कुल	23,203,432,934.17	20,379,289,807.01

ह/-

अनुभाग प्रभारी

ह/-

कार्यालय अधीक्षक

ह/-

सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-

प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-

आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

31 मार्च 2021 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

( राशि ₹ में)

अनुसूची 10 - अन्य निवेश	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	1,782,915.25	1,784,052.25
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (राज्य)	2,400,000.00	2,400,000.00
3. शेअर्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. आर्थिक सहायता और जॉइंट वेंचर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. अन्य अवधी जमा	87,105,199.01	75,242,720.00
घटाएँ : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(2,400,000.00)	(2,400,000.00)
<b>कुल</b>	<b>88,888,114.26</b>	<b>77,026,772.25</b>

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

अनुभाग प्रभारी

कार्यालय अधीक्षक

सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
31 मार्च 2021 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ  
( राशि ₹ में)**

अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	चालू वर्ष 2020-21		पिछला वर्ष 2019-20	
ए) वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
1) मालसूचियाँ :				
ए) भंडार और पुर्जे	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
बी) खुले उपकरण	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
सी) स्टॉक इन ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
चालू कार्य	-		-	
कच्ची सामग्री	-		-	
2) विविध देनदार				
ए) छः महिने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
बी) अन्य (कर्मचारियों को अग्रिम)	कुछ नहीं		कुछ नहीं	6,000.00
3) हाथ में रोकड शेष (चैक / ड्राफ्ट और ब्याज का समावेश)	-	16,841.60	-	26,689.20
4) बैंक शेष	-		-	
ए) अनुसूचित बैंको के साथ	-		-	
चालू खातेपर				कुछ नहीं
जमा खातेपर (अतिरिक्त राशि सहित)	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
बचत खातेपर		73,934,635.72		224,574,610.27
बी) गैर-अनुसूचित बैंको के साथ				
चालू खातेपर	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
जमा खातेपर				
बचत खातेपर				
4) कैश-इन-ट्रांजिट	-		-	
5) डाक बचत खाता	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
<b>कुल (ए)</b>		<b>73,951,477.32</b>		<b>224,607,299.47</b>

अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	चालू वर्ष 2020-21		पिछला वर्ष 2019-20	
बी) ऋण अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ				
1) ऋण :				
ए) कर्मचारी	379,261.00		377,937.00	
बी) समान गतिविधियों में संलग्न दूसरी संस्थाओं से	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
सी) अन्य				
1) वसूली योग्य भविष्य निधि देयताएँ	1,863,948.38		1,740,804.38	
2) वसूली योग्य प्रशासनिक व्यय	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
3) विविध जमा (पक्षों की पेशगियाँ)	69,365.00	2,312,574.38	69,365.00	2,188,106.38
2) रोकड़ या वस्तु या मूल्य में वसूली योग पेशगियाँ				
ए) पूँजी खातेपर	12,909,912.00	12,909,912.00	11,776,455.00	11,776,455.00
बी) भुगतान	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं	-
सी) अन्य (पूर्व भुगतान व्यय)	269.00	269.00	267.00	267.00
3) प्रोदभूत आय				
ए) चिह्नित/स्थायी निधि के निवेशपर	583,015,864.08	583,015,864.08	509,911,128.58	509,911,128.58
बी) अनुसूचित बैंकों से	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
सी) ऋण एवं पेशगियों पर	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
डी) अन्य (अप्राथ्य आय शामिल)	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
4) वसूली योग्य दावा	7,022,106.23	7,022,106.23	5,137,370.93	5,137,370.93
कुल (बी)		605,260,725.69		529,013,327.89
कुल (ए + बी)		679,212,203.01		753,620,627.36

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

अनुभाग प्रभारी

कार्यालय अधीक्षक

सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

( राशि ₹ में)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवा से आय :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. बिक्री से आय		
ए) तैयार माल की बिक्री		
बी) कच्ची सामग्री की बिक्री		
सी) रद्दी माल की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
ए) श्रम तथा कार्यविधी प्रभार (शिपिंग कंपनियों से प्रशासकीय प्रभारों की प्राप्तियों से आय)	56,388,315.93	50,999,572.73
बी) व्यवसायिक / परामर्श सेवाएँ	64,823.95	201,609.35
सी) एजेन्सी कमीशन और ब्रोकरेज		
डी) अनुरक्षण सेवाएँ (उपकरण / संपत्ति)		
ई) शिपिंग कंपनियों को वापस	-	-
एफ) संपत्ति बिक्री	-	(1,649.32)
जी) अन्य	-	-
<b>कुल</b>	<b>56,453,139.88</b>	<b>51,199,532.76</b>

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

अनुभाग प्रभारी

कार्यालय अधीक्षक

सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ ( राशि ₹ में)

अनुसूची 13 - अनुदान / आर्थिक सहायता :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
(अवसूली योग्य अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त)		
1. केंद्र सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. राज्य सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. सरकारी एजेंसियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. संस्था / कल्याण निकाय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<b>कुल</b>	<b>कुछ नहीं</b>	<b>कुछ नहीं</b>

ह/ -  
अनुभाग प्रभारी

ह/ -  
कार्यालय अधीक्षक

ह/ -  
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/ -  
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/ -  
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ ( राशि ₹ में)**

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. प्रवेश शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. वार्षिक शुल्क /अंशदान	-	-
3. सेमीनार / प्रोग्राम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का उल्लेख किया जाना है ।	कुल	कुल नहीं

अनुसूची 15 - निवेश से आय (चिन्हित / स्थायी निधि से किए गए निवेश पर प्राप्त ब्याज जो निधि को अंतरित किया गया )	चिन्हित निधि से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. ब्याज				
ए) सरकारी / राज्य प्रतिभूतियों पर	864,249,611.56	772,954,066.00	137,958.00	137,958.00
बी) अन्य बॉण्ड्स / डिबेंचर्स	409,147,936.94	368,629,248.95		
सी) एस. डी. एस	250,259,203.00	271,837,358.21		
2. लाभांश	-			
ए) शेयर पर	37,310,000.00	-		
बी) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-		
3. किराया				
4. अ. अन्य अवधि जमा	9,125,195.00	6,012,426.04	9,648,037.00	41,318.00
ब. पूंजीगत लाभ	168,749,353.07	31,941,812.38	-	-
5. बचत बैंक ब्याज खाता	1,948,950.95	4,594,755.47	124,966.68	164,557.89
कुल	1,740,790,250.52	1,455,969,667.05	9,910,961.68	343,833.89
चिन्हित / स्थायी निधियों में अंतरण	1,740,790,250.52	1,455,969,667.05	9,910,961.68	343,833.89
टिप्पणी: चिन्हित निधि के निवेश से प्राप्त आय संबंधित निधि में जमा				

अनुसूची 16 - स्वामित्व एवं प्रकाशन से आय :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. स्वामित्व (रॉयल्टी) से आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. प्रकाशन से आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अनुसूची 17 - प्राप्त ब्याज :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. अवधि जमा पर		
ए) अनुसूचित बैंको के साथ		
बी) गैर - अनुसूचित बैंको के साथ		
सी) संस्थाओं के साथ		
डी) अन्य	(4,466,668.48)	6,227,814.69
2. बचत खाते पर		
ए) अनुसूचित बैंको के साथ		
बी) गैर - अनुसूचित बैंको के साथ		
सी) संस्थाओं के साथ		
डी) अन्य		
3. ऋण पर		
ए) कर्मचारी / स्टाफ		
बी) अन्य		
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
कुल	(4,466,668.48)	6,227,814.69

ह/-

अनुभाग प्रभारी

ह/-

कार्यालय अधीक्षक

ह/-

सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-

प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-

आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ ( राशि ₹ में)**

अनुसूची 18- अन्य आय :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
ए) निजी परिसंपत्तियाँ		
बी) बिना लागत अथवा अनुदान से हासिल की गई संपत्ति		
2. निर्यात लाभ		
3. मांग से अधिक प्रावधान जो वापस जमा किया	44,870.00	275,072.00
4. फुटकर आय	14,774.00	89,279.00
अभिमूल्यन	-	-
<b>कुल</b>	<b>59,644.00</b>	<b>364,351.00</b>

अनुसूची 19- तैयार माल एवं जारी कार्य के स्टॉक में वृद्धि / कमी :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
ए) इतिशेष स्टॉक		
-तैयार माल	-	-
-जारी कार्य	-	-
बी ) घटाएँ : आदिशेष स्टॉक		
-तैयार माल	-	-
-जारी कार्य	-	-
निवल वृद्धि / कमी (ए-बी)	-	-

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ ( राशि ₹ में)**

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
ए) वेतन और मजदूरी	6,803,300.00	6,780,077.00
बी) भत्ते और बोनस	3,612,220.00	3,642,649.00
सी) भविष्य निधि का अंशदान	-	-
डी) अन्य निधियों को अंशदान (उपदान, अवकाश वेतन और पेंशन)	29,200,000.00	15,250,000.00
ई) कर्मचारी कल्याण व्यय (चिकित्सा बिलें, ट्यूशन फीस की भरपाई)	523,727.00	420,080.00
एफ) कर्मचारी सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों पर व्यय)	8,982,819.00	8,637,528.00
जी) अन्य अवकाश नगदीकरण	56,856.00	2,114,281.00
एच) मानदेय	39,900.00	67,667.00
<b>कुल</b>	<b>49,218,822.00</b>	<b>36,912,282.00</b>

ह/ - अनुभाग प्रभारी  
 ह/ - कार्यालय अधीक्षक  
 ह/ - सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी  
 ह/ - प्रशासनिक सह लेखाधिकारी  
 ह/ - आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

( राशि ₹ में)

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासकीय व्यय आदि :	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
ए) खरीद		
बी) श्रम और कार्यपद्धति व्यय		
सी) आवक गाड़ी भाडा और परिवहन किराया		
डी) विद्युत और शक्ती	145,108.00	23,946.00
ई) जल प्रभार		
एफ) बीमा	804.00	701.00
जी) मरम्मत एवं अनुरक्षण संगणक सॉफ्टवेअर के विकास सहित	1,867,845.00	4,561.00
एच) उत्पाद शुल्क		
आय) किराया दरें और कर	335,970.00	238,945.00
जे) वाहन चलाना और अनुरक्षण		
के) पोस्टेज, दूरभाष और संप्रेषण प्रभार	221,175.00	236,366.00
एल) मुद्रण और लेखन सामग्री	256,574.00	167,799.00
एम) यात्रा और सवारी व्यय	920,021.00	805,984.00
एन) सेमीनार / कार्यशालाओं पर व्यय		
ओ) अंशदान खर्च / समाचार पत्र एवं आवधिक किताबों पर खर्च	29,424.00	14,460.00
पी) शुल्क पर व्यय	20,058.54	5,664.00
क्यू) लेखा परीक्षकों का मानदेय	373,038.00	158,029.00
आर) अतिथि सत्कार पर खर्च	-	30.00
एस) व्यावसायिक प्रभार	88,690.00	183,295.00
टी) संदेहास्पद तथा अप्राप्य ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान		-
यू) बट्टे खाते में अप्राप्त शेष		-
व्ही) रबड की मोहर	-	1,870.00

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
डब्ल्यू)माल भाड़ा		
एक्स) वितरण व्यय		
वाय) विज्ञापन और प्रकाशन		
झेड) i) अन्य फुटकर व्यय	326,463.00	286,024.00
ii) संविदात्मक कर्मचारी	2,706,829.00	2,247,297.00
iii) नॉन-रिकरिंग राजस्व		
iv) पेशन अंशदान एवं छुट्टी वेतन	-	-
ए-1) डिजिटाइजेशन	257,884.00	222,504.00
बी-1) स्वच्छ भारत अभियान	47,362.60	35,960.00
सी-1) टीडीएस शुल्क	1,940.00	350.00
कुल	7,599,186.14	4,634,415.00

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
<b>अनुसूची 22 - उपदान, आर्थिक सहायता पर व्यय :</b>		
ए) संस्थाओं / संगठनों को दिया गया उपदान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) संस्थाओं / संगठनों को दी गयी आर्थिक सहायता / परिपक्वता पूंजी पर नुकसान	-	-
सी) नियत परिसंपत्तियाँ बेचने पर नुकसान	-	1,649.32
कुल	-	1,649.32

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
<b>अनुसूची 23 - ब्याज / ऋण मुक्ति प्रतिभूतियाँ :</b>		
ए) नियत ऋण पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सी) अन्य - ऋण मुक्ति प्रतिभूतियाँ	1,136.99	1,136.81
डी) एप्रीसिएशन (मूल्यवृद्धि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	1,136.99	1,136.81

ह/- अनुभाग प्रभारी  
ह/- कार्यालय अधीक्षक  
ह/- सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी  
ह/- प्रशासनिक सह लेखाधिकारी  
ह/- आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

**1. रुद्धिगत लेखापद्धति**

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन तथा अर्जित आधार पर तैयार किया जाता है। अर्जित में नौवहन कंपनियों से लिए जाने वाले प्रशासनिक व्यय तथा क्षति (दंडात्मक शुल्क) के भुगतान में विलंब होने को शामिल नहीं किया जाता है इन्हें वास्तव में इनके प्राप्त होने पर (नकद) ही दर्ज किया जाता है क्योंकि प्राप्त होने वाली धनराशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये खाते मुख्य रूप से गोइंग कर्न्सन एन्ड कन्सर्वेटिज़म के सिद्धान्त पर तैयार किए जाते हैं।

**2. राजस्व जानकारी**

- i) भविष्य निधि अंशदान की गणना रोकड आधार पर की गयी है, हालाँकि जहाज पर नाविकों की नियुक्ति पर (अर्थात् साइन ऑन होनेपर) करार प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन भविष्य निधि और अन्य अंशदान नाविकों की सेवा समाप्ति के बाद 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित किए जाते हैं। देय आधार पर भविष्य निधि अंशदानों की गणना करना व्यवहार्य नहीं है।
- ii) प्रशासकीय प्रभारों से उत्पन्न आय की भी रोकड आधार पर गणना की जाती है। रूढ़िवाद के सिद्धांतों को देखते हुए प्रोद्भूत आधार पर प्रशासकीय प्रभारों से प्राप्त आय की गणना करना व्यवहार्य नहीं है और उचित भी नहीं है।
- iii) अंशदानों के विलंबित भुगतान पर दंडनीय प्रभारों (क्षतियों) से उत्पन्न आय की गणना भी रोकड आधार पर की गई है। क्षतियों के दावे समेकित रिपोर्ट्स प्रणाली से तैयार किए जाते हैं। शिपिंग कंपनियों से स्पष्टीकरण / सफाई प्राप्त होने पर ही क्षतियों को निश्चित रूप दिया जा सकता है। बहुत बार निधि रिटर्न में जानकारी भरने में गलती / चूक, यात्रा की लगातार अवधि, बकाया भुगतान आदि जैसे कारणों से दावें व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए लेखा का सही और उचित चित्र दर्शाने और गलत विवरण टालने के लिए क्षतियों की गणना रोकड आधार पर करना सही है।
- iv) बॉण्ड, बैंक डिपॉजिट, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि में निवेश पर ब्याज की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है और प्रयोज्यता के अनुसार रिटर्न / ब्याज की दर और निवेशित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को ध्यान में रखते हुए समयानुपात के आधार पर गणना की जाती है।

**3. व्यय की जानकारी**

- i) चालू वर्ष 2020-2021 से संबंधित उठाए गए अथवा बाद में उठाए जानेवाले सभी अनिवार्य बकाया व्यय की गणना प्रोद्भूत आधार पर की गयी है।
- ii) चालू वर्ष के व्यय में उपबल्लध किए गए पूर्व भुगतान व्ययों को भी अलग कर दिया गया है और उन्हें एक अलग शीर्ष के अधीन दिखाया गया है।

**4. परिसंपत्तियाँ**

- i) वर्ष के दौरान प्राप्त नियत परिसंपत्तियों को खरीद मूल्य के आधार पर बताया गया है, जिसमें प्राप्ति से संबंधित अनुषंगिक और सीधे व्यय और आवक भाड़ा, प्रभार और करों का समावेश है और मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार घटाया गया है।

- ii) नियत परिसंपत्तियों को 01.04.2020 के लिखे गए मूल्य पर लिया गया है, जिसमें से आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार वर्ष दौरान मूल्यहास को घटाया है ।
- iii) वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है ।
- iv) कृपानिधि भवन तीसरी मंजिल, 9, बालचंद हीराचंद मार्ग, बलाई इस्टेट, मुंबई-400 001 पर स्थित ना.भ.नि. संगठन का कार्यालय परिसर है, जिसका क्षेत्र 3025 (वर्ग फीट) में हैं उसे 19 फरवरी 1970 में खरीदा गया । करार की शर्तों में अन्य तथ्यों के साथ साथ यह प्रावधान किया गया कि ना.भ.नि. संगठन, मेसर्स मूलराज तुलसीदास एवं फटेन्शी तुलसीदास को रु. 1.82 लाख तथा मेसर्स कृपानिधि लि. को रु. 3.93 लाख का भुगतान करेगा । ना.भ.नि. संगठन द्वारा कृपानिधि लि. को भुगतान किए गए रु. 3.93 लाख पर रु. 100 प्रत्येक के 120 शेयर जारी किए और शेष राशि रु. 3.81 लाख को ना.भ.नि. संगठन की जमा के रूप में माना गया है । आस्तियों का नाम कृपानिधि भवन में स्वामित्व प्लॉट एवं इंटायटी से संबंधित भूमि पर अधिसंरचना है ।

#### 5. मूल्यहास

- i) संबंधित वित्तिय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार और डब्ल्यूडीवी कार्यविधि के अनुसार मूल्यहास की गणना की गयी ।
- ii) वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों में जोड़ / कटौती के लिए आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार मूल्यहास पर विचार किया गया है ।

#### 6. निवेश

- i) निवेश लागत पर मूल्यांकित है । लागत में ब्रोकरेज, ट्रांसफर स्टैम्स जैसे प्राप्ति व्ययों का समावेश है ।
- ii) निवेश अर्जन पर भुगतान किए गए प्रीमियम को परिपक्वता की तारीख तक समय अनुपात के आधार पर परिशोधित किया जाता है । दूसरी और छूट पर अर्जित प्रतिभूतियों को निवेश की अवधि में अनुपात रूप में मूल्यांकित नहीं किया जाता है । जो लेखा के समान प्रारूप के प्रावधान के विरुद्ध है ।

#### 7. सरकारी अनुदान / सहायता

चालू वर्ष के दौरान कोई भी सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है ।

#### 8. अन्य प्रगटीकरण

- i) नाविक भविष्य निधि योजना 1966 के पैरा 59(3) के अधीन कर्मचारियों के जल्द अंशदान को इसी योजना के पैरा 61(3) के अधीन जल्द खाते में अंतरित किया गया है । वर्ष 2020-2021 के दौरान नाविक भविष्य निधि संगठन योजना 1966 के पैरा 59(3) के अधीन रुपये 17,707.00 की राशि जप्त की गई है ।
- ii) नाविक भविष्य निधि के निवेशों पर प्राप्त ब्याज को ब्याज उचत खाते में जमा किया गया है और वर्ष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दर से ब्याज को इस खाते से नाविकों के भविष्य निधि खातों में विनियोजित किया गया है । वर्ष 2020-2021 के दौरान निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज की व्यापारिक / प्रोद्भूत लेखाद्धति के अनुसार इस खाते में जमा किया गया है । वर्ष 2020-2021 के दौरान प्राप्त ब्याज, जो पिछले वर्ष से संबंधित है, उसे अलग शीर्षक के अधीन दिखाया गया है ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
अनुभाग प्रभारी	कार्यालय अधीक्षक	सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी	प्रशासनिक सह लेखाधिकारी
			आयुक्त



6. बिना इन्दराज मदों की आवृत्ति का विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्रविष्टियों की संख्या	राशि (रुपये)
(i)	पिछली रिपोर्ट के अनुसार शेष	6313	90,648,498.43
(ii)	जोड़े : वर्ष 2020 - 2021 के दौरान	7810	126,013,224.59
(iii)	कुल योग	14123	216,661,723.02
(iv)	घटाएँ : वर्ष के दौरान निकासी (-)	1164	14,767,637.00
(v)	शेष	<b>12959</b>	<b>201,894,086.02</b>

7. अन्य घोषणाएँ

- i) 31.03.2021 को नाविक भविष्य निधि के कुल निवेशों की बुक वैल्यू रु. 23,011,167,093.01 करोड़ है और अंकित मूल्य रु. 23,136,038,207.77 करोड़ है जिसका बाजार मूल्य रु. 23,588,004,714.79 है। (निकृष्ट निवेश सहित)
- ii) निम्नलिखित संदिग्ध निवेशों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं क्योंकि बकाया राशि की वसूली के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	नाविक भविष्य निधि	राशि (रुपये में)
क)	प्रशासनिक खाता 16% उत्तर प्रदेश कर्ताई मिल	: ₹ 2,400,000.00
ख)	कर्मचारी पेंशन और उपदान निधि 16% उत्तर प्रदेश कर्ताई मिल	: ₹ 2,200,000.00
	कुल	** ₹ 4,600,000.00

- iii) गैर निष्पादित निवेशों के मूलधन एवं ब्याज की वसूली हेतु कानूनी प्रयास जारी हैं।

ह/- अनुभाग प्रभारी  
कार्यालय अधीक्षक  
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी  
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी  
ह/- आयुक्त

- iv) ना. भ. नि. संगठन के 10 कर्मचारी सदस्यों एवं 33 पेंशनरों और 02 एनपीएस स्टाफ सदस्यों के लिए 31.03.2021 तक की पेंशन एवं ग्रेज्युटी का बीमांकन मूल्यांकन मेसर्स ग्लोबल रिस्क कन्सल्टेंट द्वारा किया गया है। उनके बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार कुल देयताएं 18.45 करोड़ है और दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार वास्तविक शेष राशी 13.58 करोड़ है। आगे यह भी कहना है कि वर्ष 2021 में किए गए बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार पेंशन एवं ग्रेज्युटी लेखा में संचयित निधि के लिए रु. 4.87 करोड़ की राशी की कमी है। इस संबंध में निधि को संभालने / पूरा करने के लिए एक मुश्त मंजूरी पर विचार करने हेतु मंत्रालय को एक पत्र दिनांक 26.05.2017 को लिखा गया है। तथापि न्यासी मंडल के अनुमोदन के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान तदर्थ आधार पर प्रशासनिक लेखा से पेंशन एवं ग्रेज्युटी निधि में रु. 2.92 करोड़ अंतरित किए गए हैं।
- v) डीएचएफएल के नॉन-कन्वर्टेबल डिबेंचर्स (NCDs) में निवेश किए गए 104.43 करोड़ रुपये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CARE) द्वारा इसे निकृष्ट निवेश मानते हुए इसे भी डाउन ग्रेड किया गया है।
- vi) आईएल एन्ड एफएस में निवेश किए गए 18.30 करोड़ रुपए को निकृष्ट निवेश के रूप में मानते हुए, इस निवेश पर वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान ब्याज प्राप्त नहीं हुई है। एनसीएलएटी के समक्ष (11 फरवरी, 2019) हुई कार्यवाही के अनुसार दो आईएल एन्ड एफएस कम्पनियों को (आईएल एन्ड एफएस लि. और आईएल एन्ड एफएस फाइनेंसियल सर्विस) संघ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए बोर्ड निदेशक द्वारा लाल कोटि (Red Category) में रखा गया है।
- vii) नाविक भविष्य निधि संगठन के न्यासी बोर्ड द्वारा निर्णय लिया है कि डी.एच.एल. और आई.एल. में 122 करोड़ रुपए के खराब निवेश के एक्सपोजर में से रु. 68-70 करोड़ रुपए की राशि बड़े खाले डालने की आवश्यकता है। न्यासी बोर्ड की 138 वीं बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 में मेसर्स डी.एच.एल. और आई.एल. एंड एफ.एस. के खराब निवेश के मामले में प्रतिपूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपए का समायोजन करने का भी निर्णय लिया गया है। तदनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में डी.एच.एल. में 25.50 करोड़ रुपए की कमी और आई.एल. एंड एफ.एस. प्रतिभूति में निवेश से 4.50 करोड़ रुपए की कमी की गई है।
- viii) न्यासी बोर्ड की 138 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेबी के नियमों के अनुसार ओवरनाइट फंड को लिक्विड फंड में निवेश के रूप में माना जाता है, ओवरनाइट फंड में ऐसा निवेश अस्थायी प्रकृति का होता है और पोर्टफोलियो मैनेजर दैनिक आधार पर बेहतर निवेश के अवसर के रूप में इसकी देखभाल करते हैं।
8. भारतीय राष्ट्रीय नाविक यूनियन (एन.यू.एस.आई) और नियोक्ताओं के बीच हुए द्विपक्षीय समझौता के अधीन विदेशी जहाजों के मालिकों द्वारा नाविकों का भविष्य निधि अंशदान प्राप्त हुआ है।
9. अनुसूचियों 1 से 25 अनुलग्नक के रूप में हैं और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय और 31 मार्च 2021 के तुलनपत्र का एक अभिन्न हिस्सा है।
10. भारतीय नाविकों के समर्पण, लगान और कड़ी मेहनत में कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में जीवन रेखा को चालू रखा, जो सराहनीय है।

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

अनुभाग प्रभारी

कार्यालय अधीक्षक

सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)  
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई  
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त और भुगतान**

( राशि ₹ में )

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20	भुगतान	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
<b>I) आदि शेष</b>			<b>I) व्यय</b>		
ए) हाथ में रोकड	8,457.20	3,987.20	ए) स्थापना व्यय	10,688,939.00	12,707,207.00
बी) बैंक शेष			बी) प्रशासकीय व्यय (अन्य)	3,316,575.00	2,813,541.00
i) चालू खाते में			सी) गैर-आवर्ती व्यय	2,826,380.40	3,323,315.00
ii) जमा खाते में			डी) आवर्ती	3,140,656.60	2,065,147.42
iii) बचत खाते में	224,574,610.27	76,895,390.26	<b>II) विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए निधि से भुगतान</b>		
<b>II) प्राप्त अनुदान</b>			कृपानिधी को किया गया भुगतान	335,970.00	228,945.00
ए) भारत सरकार से			(प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए किए गए भुगतान के साथ		
बी) राज्य सरकार से			फंड या प्रोजेक्ट का नाम भी दिखाया जाना चाहिए)		
सी) अन्य स्रोतों से			<b>III) निवेश एवं जमा</b>		
(पूंजी और राजस्व विस्तार के लिए			ए) चिन्हित / स्थायी निधि से	-	-
अनुदान अलग से दिखाया जाना चाहिए)			बी) निजी निधि से (निवेश - अन्य)	4,023,396,683.13	2,308,123,740.40
<b>III) निवेश पर ब्याज</b>			सी) खरीदी हुई प्रतिभूतियों पर प्रोद्भूत व्याज	31,053,001.14	29,184,553.40
ए) चिन्हित / स्थायी निधि	1,581,951,859.13	1,424,371,688.56	<b>IV) नियत परिसंपत्तियों एवं पूंजीगत</b>		
बी) निजी निधि (अन्य - निवेश)			चालू कार्यों पर खर्च		
<b>IV) प्राप्त व्याज</b>			ए) नियत परिसंपत्तियों की खरीद		
ए) बैंक जमा पर			बी) पूंजीगत जारी कार्यों पर व्यय		
बी) ऋण, अग्रिम आदि			<b>V) अधिशेष राशि / ऋण की वापसी</b>		
			ए) नौवहन कंपनियों को धनवापसी (पी.एफ.)		
			बी) राज्य सरकार को		
			सी) अन्य नौवहन प्रदाताओं की निधी (प्रशासकीय)		

V) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)				VI) वित्त शुल्क (ब्याज)			
i) फुटकर आय	14,774.00	91,494.00		i) पूंजी हानि	152,660.34		273,478.98
ii) आग्रियों की वसूली	612,236.00	155,306.00		ii) बैंक शुल्क	39,022.46		41,125.02
iii) अन्य प्राप्तियाँ				VII) अन्य भुगतान			
iv) लौटे चेकों का खाता				i) अंतिम निकासी	267,154,744.38		677,847,795.48
v) प्रशासकीय प्रभार	56,388,315.93	50,999,572.73		ii) अप्रतिदेय निकासियाँ	20,375,198.00		22,161,756.00
vi) क्षतियाँ (प्रशा.)	64,823.95	201,609.35		iii) अग्रिम का भुगतान	613,560.00		79,650.00
vii) जी.पी.ओ. से प्राप्त चेक				iv) सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भुगतान			7,262,922.00
VI) उधार राशि				v) कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन तथा उपदान निधि से निकासी	670,000.00		3,924,118.00
VII) अन्य प्राप्तियाँ				vi) वापस चेक भुगतान	-		-
i) शिपींग कंपनियों से अंशदान	1,560,537,346.99	1,441,953,570.48		vii) पेंशन तथा उपदान का भुगतान	29,200,000.00		15,250,000.00
ii) कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	1,190,000.00	1,437,500.00		viii) पेंशनरों का भुगतान	8,825,589.00		8,568,887.00
iii) कर्मचारी भविष्य निधि अग्रिम की वापसी	274,000.00	291,150.00		ix) संविभाग प्रबंधक का भुगतान	550,066.00		440,204.00
iv) मुक्त किया गया निवेश	849,385,569.08	256,279,950.87		x) जल्बि खाते में अंतरण	17,707.00		-
v) वर्ष के दौरान जल्ब राशी		6,303.00		xi) बकाया भुगतान - एनपीएस/एलईआई	15,270.00		99,696.00
vi) टीडीएस की वापसी (ना. भ. नि. मेन)		529,102.00		xii) एस. कुमार का एचबीए चेक वापसी का भुगतान	-		2,700.00
vii) बकाया : एचबीए देय	8,811.00	15,270.00		xiii) धनवापसी - बयाना राशि	545,000.00		100,000.00
viii) बकाया : एफडब्ल्यू + एनआरडब्ल्यू		12,445,480.95		xiv) बेस्ट इलैक्ट्रिक में जमा	-		21,075.00
ix) ईएमडी - निविदायाँ	700,000.00	565,000.00		xv) केश बुक में पास किए गए अंतिम निकासी के भुगतान परन्तु कम्प्यूटर में नहीं लिए गए	-		-
x) अन्य - कर्मचारी पेंशन एवं उपदान	29,200,000.00	15,421,084.00		VIII) इति शेष			
xi) ना. भ. नि. क्षतियाँ	3,191,942.15	5,497,652.39		ए) हाथ में रोकड	6,440.60		8,457.20
xii) आर. सी. एच.		-		बी) बैंक शेष	73,934,635.72		224,574,610.27
विविध व्यय के लिए अग्रिम की वसूली (स्टाफ)	6,000.00	-		सी) चालू खाते में	-		-
पूँजीगत लाभ	168,749,353.07	31,941,812.38		डी) जमा खाते में	-		-
कुल	4,476,858,098.77	3,319,102,924.17		कुल	4,476,858,098.77		3,319,102,924.17

ह/- अनुभाग प्रभारी  
कार्यालय अधीक्षक  
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी  
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी  
ह/-  
ह/-  
आयुक्त



# NAVIK BHAVISHYA NIDHI



SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(UNDER MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS)

**55th ANNUAL ACCOUNT  
FOR YEAR 2020 - 21**

ON THE WORKING OF SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME, 1966

OFFICE OF

THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND COMMISSIONER

KRUPANIDHI, 3RD FLOOR, 9, WALCHAND HIRACHAND MARG, BALLARD ESTATE, MUMBAI - 400 001.

FAX - 022-2261 62 02 • PHONE - 022-22616925, 022-22662044

Web site : [www.spfo.gov.in](http://www.spfo.gov.in) • E-mail Address : [spfo-commr@spfo.gov.in](mailto:spfo-commr@spfo.gov.in)



**FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE**  
**CENTRAL AUTONOMOUS BODIES**  
**(NON-PROFIT ORGANIZATIONS AND SIMILAR**  
**INSTITUTIONS)**



# CONTENTS

	PAGES
SEPARATE AUDIT REPORT OF (CAG) .....	6-9
BALANCE SHEET .....	10
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT .....	11
SCHEDULES TO THE ABOVE FINANCIAL STATEMENTS .....	12-31
STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS .....	32

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE  
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF THE INDIA ON THE ACCOUNTS  
OF THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI  
FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021.**

Comments	Reply
<p>1. We have audited the attached Balance Sheet of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai (SPFO) as at 31 March 2021 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Para 48 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 notified by the Government of India in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966. These Financial Statements are the responsibility of the Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.</p> <p>2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.</p> <p>3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.</p> <p>4. Based on our audit, we report that:</p> <p>(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;</p> <p>(ii) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustees under Para 47 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966;</p> <p>(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Seamen's Provident Fund Organisation as required under Para 47 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 in so far as it appears from our examination of such books;</p> <p>(iv) We further report that:</p> <p><b>A. Balance Sheet</b>  <b>A.1. Earmarked/Endowment funds (Schedule 3): ₹ 2370.49 crore</b>  <b>SPF Pension &amp; Gratuity Fund: ₹ 14.69 crore</b></p> <p>As per the actuarial valuation report, the liability towards Pension Fund, Gratuity and Leave Encashment as on 31 March 2021 is ₹ 18.45 crore. Since, the fund balance as on 31 March 2021 is ₹ 14.69 crore, there is a deficit of ₹ 3.76 crore in the Fund.</p> <p>Management has stated that they are making efforts to recoup the deficit. The above issue is being raised in the Separate Audit Reports since 2012-13.</p>	<p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>This issue was raised in SAR 2012-13 at the time of Rs. 1.67 crores was balance in the SPF Pension &amp; Gratuity Fund. At that time, Actuarial Valuer was not engaged in SPFO. Thereafter, M/s. Global Risk Consultant appointed as Actuarial Valuer in 2016-17.</p> <p>As per Actuarial Valuation report for the F.Y. 2015-16, total liability of Rs. 16.60 crores towards Officers and Staff Members of the SPFO against the actual balance available in the fund amounted to Rs. 5.82 crores for the F.Y. 2015-16. Further it is submitted that Rs. 10.78 crores deficit against the accumulated Fund in the Pension and Gratuity Account as per Actuarial Valuation report up to the F.Y. 2015-16.</p> <p>In this context, this office had approached to the Ministry vide letter no. 511/0006/2017 dated 26.05.2017 for one time grant of Rs. 11.23 crores. As there was delay in processing of above</p>

Comments	Reply																																												
<p><b>A.2 Fixed Assets (Schedule 8)- ₹ 0.09 crore Capital Work in Progress- ₹ 0.159 crore</b></p> <p><b>A.2.1</b> An amount of ₹ 0.73 crore deposited with CPWD for renovation of office premises of SPFO was booked under Advances under Current Assets Loans and Advances. CPWD intimated (August 2021) that they had done work for a gross amount of ₹ 0.82 crore till 31 March 2021 and raised demand for the balance amount. Thus, the advance of ₹ 0.73 crore should have been adjusted against Capital Work in Progress (CWIP), liability for ₹ 0.09 crore should have been booked under current liabilities and an amount of ₹ 0.82 crore should have been booked under CWIP.</p> <p>However, Non-accounting of the above work done as on 31 March 2021 resulted in understatement of Fixed Assets - (CWIP) by ₹ 0.82 crore, understatement of current liabilities by ₹ 0.09 crore and overstatement of Current Assets Loans and Advances by ₹ 0.73 crore.</p> <p><b>A.2.2</b> The above does not include an amount of ₹ 0.09 crore being the expenditure incurred towards development of new software through M/s. National Informatics Centre (NIC). As the software development work is in progress the expenditure should have been accounted under CWIP.</p> <p>The above has resulted in overstatement of Current Assets, Loans &amp; Advances by ₹ 0.09 crore and understatement of Fixed assets (CWIP) by ₹ 0.09 crore.</p> <p>This issue is being raised in the Separate Audit Report since 2019-20.</p> <p><b>A.3 Investments from Earmarked/Endowment Funds (Schedule 9) - ₹ 2320.34 crore Debtures and Bonds: ₹ 655.14 crore</b></p> <p><b>A.3.1.</b> SPFO had invested ₹ 107.36 crore in Non-Convertible Debentures (NCD) of Dewan Housing Finance limited (DHFL) out of which Rs. 3 crore was redeemed utilizing the early redemption option. It was deliberated in the meeting of Board of Trustees (March 2021) that the resolution plan of DHFL envisages payment of around 43% of the principal and the balance outstanding in principal exposure will have to be written off.</p>	<p>request by Ministry, the Board of Trustees had acted proactively and decided to recoup the gap in deficit in a phased manner out of the funds available with its own resources from Administrative charges.</p> <p>Accordingly, the details of transferred Fund are as under :-</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>2012-13</td> <td>-</td> <td>0.35</td> <td>crores</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>-</td> <td>0.35</td> <td>crores</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>-</td> <td>0.55</td> <td>crores</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>-</td> <td>1.10</td> <td>crores</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>-</td> <td>0.98</td> <td>crores</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>crore</td> </tr> <tr> <td>2018-19</td> <td>-</td> <td>1.32</td> <td>crores</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>-</td> <td>1.525</td> <td>crores</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>-</td> <td>2.92</td> <td>crores</td> </tr> <tr> <td>2021-22</td> <td>-</td> <td>2.94</td> <td>crores</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td><b>13.035</b></td> <td><b>crores</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>At present, we have reduced the gap of Rs. 13.04 crores.</p> <p>At the end of the financial year 2020-21 balance in the Staff Pension and Gratuity was Rs. 14.69 crores. Over the years SPFO has succeeded in narrowing the deficit from Rs. 16.60 crores in F.Y. 2015-16 to Rs. 3.72 crores in F.Y. 2020-21.</p> <p>Further, it has been decided to transfer to Staff Pension &amp; Gratuity Account as under :-</p> <p>FY 2020-21 - 2.92 crores FY-2021-22- 2.94 crores (Budget Proposed) FY-2022-23- 1.67 crores Thus, the deficit of Rs. 3.76 crores will be recoup within the above time scale manner.</p> <p>SPFO will give new head of Fixed Asset as 'Capital Work in Progress (CWIP) ' and include in schedule 8 in the next financial year.</p> <p>Noted for Compliance.</p> <p>The software is not yet delivered by NICSJ or its vendor. In such situation, it is not feasible to compute the valuation of the software. On receipt of Certificate of Completion from the NICSJ, the cost of the software shall be incorporated in the Fixed Assets register.</p> <p>In the 138th Board of Trustees meeting held on 16th March, 2021, it was decided to make provision of Rs. 60-70 crores for bad investments (DHFL &amp; IL&amp;FS) in next two Financial year. In pursuance to the above, Rs.30 crores part provision was made to write off the Bad investment in the F.Y. 2020-21. Out of which Rs. 28.50 Crores written off from DHFL in the F.Y.2020-21. Subsequently, the final settlement of DHFL made on 29.09.2021 total capital loss is Rs.53.79 crores.</p>	2012-13	-	0.35	crores	2013-14	-	0.35	crores	2014-15	-	0.55	crores	2015-16	-	1.10	crores	2016-17	-	0.98	crores	2017-18	-	1.00	crore	2018-19	-	1.32	crores	2019-20	-	1.525	crores	2020-21	-	2.92	crores	2021-22	-	2.94	crores	<b>Total</b>		<b>13.035</b>	<b>crores</b>
2012-13	-	0.35	crores																																										
2013-14	-	0.35	crores																																										
2014-15	-	0.55	crores																																										
2015-16	-	1.10	crores																																										
2016-17	-	0.98	crores																																										
2017-18	-	1.00	crore																																										
2018-19	-	1.32	crores																																										
2019-20	-	1.525	crores																																										
2020-21	-	2.92	crores																																										
2021-22	-	2.94	crores																																										
<b>Total</b>		<b>13.035</b>	<b>crores</b>																																										

Comments	Reply								
<p>Subsequently, ₹ 22.96 crore was received in cash and ₹ 27.62 crore was received in the form of 6.75% NCD of Piramal Capital &amp; Housing Finance limited in September 2021 (i.e. before finalisation of Accounts). The remaining capital loss of ₹ 53.78 crore (107.36 minus (3+22.96 +27.62) has to be written off in the accounts. However, SPFO has made a provision for Capital Loss in the accounts of 2020-21 for ₹ 25.51 crore only in respect of the above investment.</p> <p>This has resulted in overstatement of Investments by ₹ 28.27 crore (53.78 minus 25.51) and overstatement of Surplus also by ₹ 28.27 crore.</p> <p>The above issue is being raised in SAR since 2018-19.</p> <p><b>A.3.2</b> SPFO had invested ₹ 18.30 crore in Non-convertible Debentures (NCDs) of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited (IL&amp;FS) entities.</p> <p>As per proceedings (February 2019) before National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT), two IL&amp;FS entities (IL&amp;FS Limited and IL&amp;FS Financial Services) have been placed under the Red category by the new Board of Directors appointed by the Union Government to manage the affairs of IL&amp;FS Group of companies, which means that such entities cannot make their payment obligations even towards senior secured financial creditors.</p> <p>SPFO provided ₹ 4.49 crore only in the accounts of 2020-21 instead of full provision, towards diminution in the value of investment in NCDs of IL&amp;FS. This has resulted in overstatement of Investments by ₹ 13.81 crore (18.30 minus 4.49) and overstatement of Surplus also by ₹ 13.81 crore.</p> <p>The above issue is being raised in the Separate Audit Report since 2019-20.</p> <p><b>B. Management Letter</b></p> <p>Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of Seamen's Provident Fund Organisation through a Management Letter being issued separately for remedial/corrective action.</p> <p>(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.</p> <p>(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:</p> <p>(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai as at 31 March 2021; and</p> <p>(b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.</p> <p>For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India.</p> <p>Sd/- (P.V. Hari Krishna) Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai</p> <p>Place : Mumbai, Date : 28 June, 2022</p>	<p>The details of the Capital Loss is as under:-</p> <table border="1" data-bbox="295 224 391 929"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Amount (Rs. in crores)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Capital Loss as on 29.09.2021 (F.Y.2021-22)</td> <td>Rs. 53.78 crores</td> </tr> <tr> <td>Less: Provision of Capital Loss in F.Y.2020-21</td> <td>(-) Rs. 25.51 crores</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>Rs. 28.27 crores</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>As final settlement of DHFL made on 29.09.2021 i.e. in the F.Y. 2021-22, the remaining Capital Loss will be booked in the next F.Y.2021-22.</p> <p>In the 138th Meeting of Board of Trustees, SPFO, it has been decided to make provision of 50% of the bad investments of IL&amp;FS in next two financial years.</p> <p>Accordingly, Rs. 4.49 crores has been set off in F.Y. 2020-21 and Rs. 4.49 crores will be set off in next F.Y. 2021-22.</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>(Surendra Kumar) Commissioner, Seamen's Provident Fund, Mumbai</p> <p>Place :- Mumbai Date :- 05 July, 2022</p>	Particulars	Amount (Rs. in crores)	Total Capital Loss as on 29.09.2021 (F.Y.2021-22)	Rs. 53.78 crores	Less: Provision of Capital Loss in F.Y.2020-21	(-) Rs. 25.51 crores	<b>Total</b>	<b>Rs. 28.27 crores</b>
Particulars	Amount (Rs. in crores)								
Total Capital Loss as on 29.09.2021 (F.Y.2021-22)	Rs. 53.78 crores								
Less: Provision of Capital Loss in F.Y.2020-21	(-) Rs. 25.51 crores								
<b>Total</b>	<b>Rs. 28.27 crores</b>								

# ANNEXURE - 1

Comments	Reply
<p><b>1. Adequacy of the Internal Audit System</b> Internal Audit for the year 2020-21 was carried out by a firm of Chartered Accountants.</p> <p><b>2. Adequacy of Internal Control System</b> The internal control system needs strengthening in view of the following: The amount of recoveries/subscriptions pending posting to individual Provident Fund Accounts (termed as an un-posted items and disclosed at Sr. No. 6 of Schedule 25) was getting accumulated and stood at ₹20.19 crore as on 31 March 2021.</p> <p><b>3. System of Physical Verification of Fixed Assets</b> Physical verification of fixed assets was not carried during the year 2020-21. Management attributed the same to ongoing repair of office premises.</p> <p><b>4. System of Physical Verification of Inventory</b> Physical verification of inventory is not applicable to SPFO as it has no inventory.</p> <p><b>5. Regularity in payment of dues</b> SPFO was regular in payment of undisputed statutory dues.</p> <p>Place: Mumbai, Date: 28 June, 2022.</p> <p style="text-align: right;">Sd/- (Anita Singh) Director</p>	<p>Noted</p> <p>The pending of posting to Individual PF Account (unposted item) due to personal details documents of the Seafarers were not provided by the employers. The remedial measures is being taken in this regard to reduce the unposted items.</p> <p>Office premises is under repair and during this period, Furniture &amp; Fixtures to be handed over by the CPWD. In such case it is not feasible to verify all the items of Fixed Assets. Rest of the things were verified by the Internal Auditor. Complete Physical verification of Fixed Assets will be feasible only after hand over of the office premises by CPWD</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p style="text-align: right;">Sd/- (Surendra Kumar) Commissioner Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai</p> <p>Place: Mumbai, Date: 05 July, 2022</p>

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021**

(AMOUNT - ₹)

<b>CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES</b>	<b>SCHEDULE</b>	<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
CORPUS / CAPITAL FUND	1	112,202,171.54	109,022,095.48
RESERVES AND SURPLUS	2		-
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	23,704,901,984.23	21,064,123,905.78
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4		
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5		
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	1,122,652.30	1,122,652.30
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	154,222,540.68	36,175,110.86
<b>TOTAL</b>		<b>23,972,449,348.75</b>	<b>21,210,443,764.42</b>
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	8	916,097.31	506,557.80
INVESTMENTS FORM - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	9	23,203,432,934.17	20,379,289,807.01
INVESTMENTS - OTHERS	10	88,888,114.26	77,026,772.25
CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES ETC.	11	679,212,203.01	753,620,627.36
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)			
<b>TOTAL</b>		<b>23,972,449,348.75</b>	<b>21,210,443,764.42</b>

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dy. Superintendent

Office Superintendent

Asst. Adm. Accounts Officer

Adm. Cum Accounts Officer

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021**

(AMOUNT - ₹)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR 2020-21	PREVIOUS YEAR 2019-20
<b>INCOME</b>			
Income From Sales / Services	12	56,453,139.88	51,199,532.76
Grants / Subsidies	13	nil	nil
Fees / Subscriptions	14	nil	nil
Income from Investments (Income on Invest from Earmarked to Funds)	15	9,910,961.68	343,833.89
Income from Royalty, Publication etc.	16	nil	nil
Interest Earned Accrued Int Adjustment to Prior Period	17	(4,466,668.48)	6,227,814.69
Other Income (+) Expenses Written Back	18	59,644.00	364,351.00
Increase (Decrease) in Stock of Finished Goods and Works-in-progress	19	nil	nil
<b>TOTAL (A)</b>		<b>61,957,077.08</b>	<b>58,135,532.34</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Establishment Expenses	20	49,218,822.00	36,912,282.00
Other Administrative Expenses etc.	21	7,599,186.14	4,634,415.00
Expenditure on Grants Subsidies etc.			
Capital Loss on Maturity of Security	22	nil	nil
Loss on Sale of Fixed Assets			
Amortisation on Securities	23	1,136.99	1,136.81
Depreciation (Net Total at the Year End)		367,855.89	120,264.30
Corresponding to Schedule 8			
<b>TOTAL (B)</b>		<b>57,187,001.02</b>	<b>41,668,098.11</b>
Balance being Excess of Income Over Exp. (A-B)		4,770,076.06	16,467,434.23
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer To / From General Reserve			
Balance being Surplus/Deficit carried to Corpus /Capital Fund			
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Sd/-

Dy. Superintendent

Sd/-

Office Superintendent

Sd/-

Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

<b>SCHEDULES 1 - CORPUS / CAPITAL FUND:</b>	<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
Balance as at the beginning of the year	109,022,095.48	92,554,661.25
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	(1,590,000.00)	NIL
Add/(Deduct) : Balance of Income / (Expenditure) Transferred from the Income & Expenditure Account	4,770,076.06	16,467,434.23
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>112,202,171.54</b>	<b>109,022,095.48</b>
<b>SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS AND OTHER FUNDS</b>		
<b>1. Capital Reserves:</b>		
As Per Last Account	NIL	NIL
Addition During The Year	NIL	NIL
Less: Deduction During The Year	NIL	NIL
<b>2. Revaluation Reserves:</b>		
As Per Last Account	NIL	NIL
Addition During The Year	NIL	NIL
Less: Deduction During The Year	NIL	NIL
<b>3. Special Reserves:</b>		
As Per Last Account	NIL	NIL
Addition During The Year	NIL	NIL
Less: Deduction During The Year	NIL	NIL
<b>4. General Reserves</b>		
Income & Expenditure Account	NIL	NIL
As Per Last Account	NIL	NIL
Addition During The Year	NIL	NIL
Less: Deduction During The Year	NIL	NIL
<b>5 Interest Suspense Account</b>		
As Per Last Account	NIL	NIL
Addition During The Year	NIL	NIL
Less: Deduction During The Year	NIL	NIL
<b>Total</b>	<b>NIL</b>	<b>NIL</b>

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dy. Superintendent

Office Superintendent

Asst. Adm. Accounts Officer

Adm. Cum Accounts Officer

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021 (AMOUNT - ₹)**

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS (Forfeiture Fund + SPF + Staff GPF + Pension & Gratuity)	CURRENT YEAR 2020-21		PREVIOUS YEAR 2019-20
<b>A) Opening Balance of Funds</b>			
i) <b>SPF Main Account Opening Balance</b>	20,340,753,508.51		18,254,031,985.49
Add : Addition During the Year	3,044,016,444.13		2,811,578,710.72
Less : Deduction During the Year	429,577,385.04		724,857,187.70
<b>Total</b>	<b>22,955,192,567.60</b>		<b>20,340,753,508.51</b>
ii) <b>SPFO Forfeiture Account, Opening Balance</b>	48,538,201.08		45,351,665.62
Add : Addition During the Year	4,339,529.84		5,323,589.86
Less : Deduction During the Year	1,228,503.36		2,137,054.40
<b>Total :</b>	<b>51,649,227.56</b>		<b>48,538,201.08</b>
iii) <b>SPF Staff GPF Account , Opening Balance</b>	9,989,645.73		11,493,073.01
Add : Addition During the Year	4,439,100.98		4,220,293.15
Less : Deduction During the Year	2,893,420.41		5,723,720.43
<b>Total :</b>	<b>11,535,326.30</b>		<b>9,989,645.73</b>
iv) <b>SPF Pension &amp; Gratuity Fund, Opening Balance</b>	111,278,131.40		95,808,788.22
Add : Addition During the Year	49,865,788.90		31,717,067.49
Less : Deduction During the Year	14,194,022.45		16,247,724.31
<b>Total :</b>	<b>146,949,897.85</b>		<b>111,278,131.40</b>
<b>B) Additions to the Funds:</b>			
i) Donations / Grants			
ii) Income from Investments Made on Accounts of Funds			
iii) Other Additions (Specify Nature) Transfer from cont.			
<b>C) Interest Suspense Account</b>			
Opening Balance			
As per last Account	553,564,419.06		459,815,245.40
Addition During the Year	2,287,000,236.26		1,930,736,961.27
Less: Deduction During the Year	(2,300,989,690.40)		(1,836,987,787.61)
<b>Total :</b>	<b>539,574,964.92</b>		<b>553,564,419.06</b>
<b>D) Utilization / Expenditure Towards Objectives of Funds</b>			
i) Capital Expenditure Paid to SWFS/RBS			
Fixed			
Others Adjust. of Accrued Int to Prior Period			
<b>Total</b>			
ii) Revenue Expenditure			
Salaries, Wages, Allowances Etc.			
Rent			
Other Administrative Expenses			
<b>Total</b>			
<b>TOTAL (D)</b>			
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR END (A+B+C-D)</b>	<b>23,704,901,984.23</b>		<b>21,064,123,905.78</b>

Sd/-

Dy. Superintendent

Sd/-

Office Superintendent

Sd/-

Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

	CURRENT YEAR 2020-21		PREVIOUS YEAR 2019-20	
<b>SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:</b>				
1. Central Government	Nil	Nil	Nil	Nil
2. State Governments	Nil	Nil	Nil	Nil
3. Financial Statements				
A) Terms Loans	Nil	Nil	Nil	Nil
B) Interest Accrued and Due	Nil	Nil	Nil	Nil
4. Banks				
A) Terms Loans	Nil	Nil	Nil	Nil
Interest Accrued and Due	Nil	Nil	Nil	Nil
B) Other Loans (Specify)	Nil	Nil	Nil	Nil
Interest Accrued and Due	Nil	Nil	Nil	Nil
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Other (Specify)				
<b>Total</b>	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>Note : Amounts due within one year</b>				

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dy. Superintendent

Office Superintendent

Asst. Adm. Accounts Officer

Adm. Cum Accounts Officer

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

		CURRENT YEAR 2020-21	PREVIOUS YEAR 2019-20
		(AMOUNT - ₹)	
<b>SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:</b>			
1.	Central Government	Nil	Nil
2.	State Governments (Specify)	Nil	Nil
3.	Financial Institutions	Nil	Nil
4.	Bank:	Nil	Nil
	A) Terms Loans	Nil	Nil
	B) Other Loans (Specify)	Nil	Nil
5.	Other Institutions and Agencies	Nil	Nil
6.	Debentures and Bonds	Nil	Nil
7.	Fixed Deposits	Nil	Nil
8.	Others (specify)	Nil	Nil
	<b>TOTAL</b>	Nil	Nil
<b>Note : Amounts due within one year</b>			
		CURRENT YEAR 2020-21	PREVIOUS YEAR 2019-20
<b>SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES</b>			
A)	Acceptances Secured by Hypothecation of Capital Equipment and other Assets		
B)	Others: Returned Cheque		
	As per last Balance Sheet	1,122,652.30	1,122,652.30
	Additions during the year	-	-
	Less: Payment during the year		
	<b>TOTAL</b>	<b>1,122,652.30</b>	<b>1,122,652.30</b>
<b>Note : Amounts due within one year or more</b>			

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dy. Superintendent

Office Superintendent

Asst. Adm. Accounts Officer

Adm. Cum Accounts Officer

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		CURRENT YEAR 2020-21	PREVIOUS YEAR 2019-20
<b>A) Current Liabilities</b>			
1. Acceptances			
2. Sundry Creditors	148,648,189.68	20,319,681.91	
A) For Goods			
B) Others	3,329,169.00	151,977,358.68	23,249,359.91
3. Advances Received	-	-	
4. Interest Accrued but not due on			
A) Secured Loans / Borrowings			
B) Unsecured Loans			
5. Statutory Liabilities			
A) Overdue			
B) Others		-	-
6. Others Current Liabilities	655,182.00	655,182.00	12,925,750.95
	<b>TOTAL (A)</b>	<b>152,632,540.68</b>	<b>36,175,110.86</b>
<b>B) Provisions</b>			
1. For Taxation			
2. Gratuity			
3. Superannuation			
4. Accumulated Leave Encashment			
5. Trade Warranties / Claims			
6. Others (Specify) Doubtful Investment	1,590,000.00	1,590,000.00	
	<b>TOTAL (B)</b>	<b>1,590,000.00</b>	
<b>TOTAL (A + B)</b>		<b>154,222,540.68</b>	<b>36,175,110.86</b>

Sd/-

Sd/-

Office Superintendent

Asst. Adm. Accounts Officer

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**  
**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION		NET BLOCK	
	Description	Cost valuation as at beginning of the year	Addition during the year	Deduction during the year	cost valuation at the year end	For the Current Year End	As at Current Year End	As at Previous Year End
1. Land								
A) Freehold								
B) Leasehold								
2. Building								
A) On Freehold Land								
B) On Leasehold Land								
C) Ownership Flats/premises	88,030.51				88,030.51	8,803.05	79,227.46	88,030.51
D) Superstructures on Land not belonging to the entity				-				
3. Plant, Machinery & Equipment								
4. Vehicles	198,501.51				198,501.51	19,850.15	178,651.36	198,501.51
5. Furniture & Fixtures	141,462.38				141,462.38	21,219.36	120,243.02	141,462.38
6. Office Equipments	32,609.97		-		810,005.37	306,494.98	503,510.39	32,609.97
7. Computer / Peripheral		777,395.40						
8. Electric Installations								
9. Library Books								
10. Tubewells and W Supply								
11. Other Fixed Assets	45,953.43				45,953.43	11,488.35	34,465.08	45,953.43
12. Legal Software			-					
<b>TOTAL OF CURRENT YEAR</b>								
<b>PREVIOUS YEAR</b>								
<b>TOTAL</b>		<b>506,557.80</b>	<b>777,395.40</b>		<b>1,283,953.20</b>	<b>367,855.89</b>	<b>916,097.31</b>	<b>506,557.80</b>

Note: The method of providing depreciation is according to income Tax Act, 1961 at the rate specified for relevant financial year and depreciation is on WDV method

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

<b>SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
1. In Government Securities (SPF Main+Forfeiture+Staff SPF+Staff Pension)	5,540,331,145.90	5,544,138,603.77
2. Other Approved Securities	9,649,339,980.64	7,896,152,555.86
3. Shares (Mutual Fund)	1,074,996,719.13	
4. Debentures and Bonds	6,551,388,088.50	5,943,915,557.38
5. Money Market / Instruments	77,300,000.00	
6. Subsidiaries and Joint Ventures		
7. Others (to be Specified) (TDR) & Money Market Instrument	312,277,000.00	997,283,090.00
<b>TOTAL</b>	-	
<b>Less: Provisions for Diminution in Value of Invest. (Provision)</b>	(2,200,000.00)	(2,200,000.00)
<b>Total</b>	<b>23,203,432,934.17</b>	<b>20,379,289,807.01</b>
<b>Schedule 10 - Investments Others</b>	<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
1. In Government Securities	1,782,915.25	1,784,052.25
2. Other Approved Securities	2,400,000.00	2,400,000.00
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be Specified) (TDR) & Money Market Instrument	87,105,199.01	75,242,720.00
<b>Less: Provisions for Diminution in Value of Invest. (Provision)</b>	(2,400,000.00)	(2,400,000.00)
<b>Total</b>	<b>88,888,114.26</b>	<b>77,026,772.25</b>

Sd/-

Dy. Superintendent

Sd/-

Office Superintendent

Sd/-

Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**  
**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES	CURRENT YEAR 2020-21		PREVIOUS YEAR 2019-20	
<b>A) Current Assets:</b>				
1. Inventories:				
A) Stores and Spares	Nil	Nil	Nil	Nil
B) Loose Trade	Nil	Nil	Nil	Nil
C) Stock in Trade				
Finished Goods				
Work in Progress				
Raw Materials				
2. Sundry Debtors:				
A) Debts Outstanding for a Period Exceeding Six Months	Nil	Nil	Nil	Nil
B) Others (Advance to Staff)	Nil	Nil	Nil	6,000.00
3. Cash Balances in Hand (including Cheques/Drafts & Inst.)		16,841.60		26,689.20
4. Bank Balance:				
A) With Scheduled Banks	Nil		Nil	
On Current Accounts	Nil		Nil	
On Deposit Accounts (includes Margine Money)	Nil		Nil	
On Savings Accounts		73,934,635.72		224,574,610.27
B) With Non-scheduled	Nil		Nil	
On Current Accounts	Nil		Nil	
On Deposits Accounts	Nil		Nil	
On Savings Accounts	Nil		Nil	
Cash - in - Transit				
5. Post Office Savings Accounts	Nil		Nil	
	Nil		Nil	
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>73,951,477.32</b>	<b>-</b>	<b>224,607,299.47</b>

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dy. Superintendent

Office Superintendent

Asst. Adm. Accounts Officer

Adm. Cum Accounts Officer

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES		CURRENT YEAR 2020-21	PREVIOUS YEAR 2019-20
<b>B) Loans Advances and other Assets</b>			
1. Loans			
A) Staff	379,261.00	377,937.00	
B) Other Entities Engaged in Activities / Objectives			
C) Other (Specify)			
TDS Recoverable Amount/ PF Due Recoverable	1,863,948.38	1,740,804.38	
Admn. Charges Recoverable			
Sundry Deposits (Advances to Parties)	69,365.00	69,365.00	2,188,106.38
2. Advances and other Amounts Recoverable in Cash of in kind or for value to be received:			
A) On Capital Account	12,909,912.00	12,909,912.00	11,776,455.00
B) Payments	NIL	-	NIL
C) Other (prepaid Expenses)	269.00	269.00	267.00
3. Income Accrued:			
A) On invest from Earmarked/Endowment Funds(Accrued)	583,015,864.08	583,015,864.08	509,911,128.58
B) With Non-scheduled Banks			
C) On Loans And Advances			
D) Others (includes Income Due Unrealized)			
4. Claims Receivable	7,022,106.23	7,022,106.23	5,137,370.93
<b>TOTAL (B)</b>		605,260,725.69	529,013,327.89
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>679,212,203.01</b>	<b>753,620,627.36</b>

Sd/-

Sd/-

Office Superintendent

Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-

Accounts Officer

Sd/-

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

<b>SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES / SERVICES</b>		<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
1.	Income from Sales		
	A) Sale of Finished Goods		
	B) Sale of Raw Materials		
	C) Sale of Scraps		
2.	Income from Services		
	A) Labour and Processing Charges		
	(Income from Receipts of Admin. Charges from Shipping Co.)	56,388,315.93	50,999,572.73
	B) Professional / Consultancy Services ( Damages )	64,823.95	201,609.35
	C) Agency Commissions and Brokerage		
	D) Maintenance Service (Equipments / Property)		
	E) Refund to Shipping Companies	-	-
	F) Sale of Assets	-	(1,649.32)
	G) Other (Specify)	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>56,453,139.88</b>	<b>51,199,532.76</b>
<b>SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES</b>		<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
(irrecoverable Grants & Subsidies Received)			
1.	Central Governments	Nil	Nil
2.	State Government(s)	Nil	Nil
3.	Governments Agencies	Nil	Nil
4.	Institutions / Welfare Bodies	Nil	Nil
5.	International Organizations	Nil	Nil
6.	Others (Specify)	Nil	Nil
	<b>TOTAL</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

<b>SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS</b>		<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
1.	Entrance Fees	Nil	Nil
2.	Annual Fees / Subscriptions		
3.	Seminar / Programme Fees		
4.	Consultancy Fees		
5.	Others (specify)	Nil	Nil
Note : Accounting policies towards each item are to be disclosed.			
<b>Total</b>		Nil	Nil

<b>SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS</b>		<b>Investment from Earmarked Fund</b>		<b>Investment - Others</b>	
Income on investment from earmarked/endorsement funds transferred to funds)		<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
funds transferred to funds)		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
<b>1. Interest</b>					
a)	On Govt./State Securities	864,249,611.56	772,954,066.00	137,958.00	137,958.00
b)	Other Bonds/Debentures	409,147,936.94	368,629,248.95		
c)	SDS	250,259,203.00	271,837,358.21		
<b>2. Dividends</b>					
a)	On Shares	-			
b)	On Mutual Fund Securities	37,310,000.00	-		
<b>3. Rents</b>					
		-	-		
<b>4. (a) Other (Specify) (TDR) Capital gain</b>		9,125,195.00	6,012,426.04	9,648,037.00	41,318.00
<b>(b) Capital Gain</b>		168,749,353.07	31,941,812.38	-	-
<b>5. Saving Bank Interest Accounts</b>		1,948,950.95	4,594,755.47	124,966.68	164,557.89
<b>TOTAL</b>		<b>1,740,790,250.52</b>	<b>1,455,969,667.05</b>	<b>9,910,961.68</b>	<b>343,833.89</b>
<b>TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>		<b>1,740,790,250.52</b>	<b>1,455,969,667.05</b>	<b>9,910,961.68</b>	<b>343,833.89</b>
NOTE : The interest on investment from Earmarked Fund directly credited to respective fund A/c.					

Sd/-

Dy. Superintendent

Sd/-

Office Superintendent

Sd/-

Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

<b>SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION</b>		<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
1.	Income from Royalty	NIL	NIL
2.	Income from Publication		
3.	Others (specify)		
	<b>Total</b>	NIL	NIL
<b>Schedule 17 - Interest Earned/Accrue Interest</b>			
1.	On Terms Deposits:		
	A) With Scheduled Banks		
	B) With Non Scheduled Banks		
	C) With Institutions		
	D) Others/accrued	(4,466,668.48)	6,227,814.69
2.	On Savings Accounts		
	A) With Scheduled Banks		
	B) With Non Scheduled Banks		
	C) With Institutions		
	D) Others		
3.	On Loans		
	A) Employees / Staff		
	B) Others		
4.	Interest On Debtors And Other Receivables		
	<b>Total</b>	<b>(4,466,668.48)</b>	<b>6,227,814.69</b>
Note : Tax Deducted at Sources to be indicated			

Sd/-

Dy. Superintendent

Sd/-

Office Superintendent

Sd/-

Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

<b>SCHEDULE - 18 OTHER INCOME</b>	<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
1. Profit on Sale Disposal of Assets		
A) Owned Assets		
B) Assets Acquired Out of Grants or Received Fees of Cost		
2. Export Incentives Realized		
3. Excess Provision Written Back	44,870.00	275,072.00
4. Miscellaneous Income	14,774.00	89,279.00
Appreciation	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>59,644.00</b>	<b>364,351.00</b>
<b>SCHEDULE - 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS</b>	<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
A) Closing Stock		
Finished Goods		
Work in Progress		
B) Less : Opening Stock		
Finished Goods		
Work In Progress		
<b>NET INCREASE/(DECREASE) (A - B)</b>		
<b>SCHEDULE - 20 ESTABLISHMENT EXPENSES</b>	<b>2020-21</b>	<b>2019-20</b>
A) Salaries and Wages / Arrear of 7th CPC	6,803,300.00	6,780,077.00
B) Allowances and Bonus/MACP	3,612,220.00	3,642,649.00
C) Contribution to Provident Fund		
D) Contribution to Other Fund (Specify) (Gratuity, Leave Salary and Pension Fund)	29,200,000.00	15,250,000.00
E) Staff Welfare Expenses (Medical Bills/Tuition Fees Reimbu/MACP)	523,727.00	420,080.00
F) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefit	8,982,819.00	8,637,528.00
G) Other (Specify) Encashment of Leave	56,856.00	2,114,281.00
H) Honorarium	39,900.00	67,667.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,218,822.00</b>	<b>36,912,282.00</b>

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dy. Superintendent

Office Superintendent

Asst. Adm. Accounts Officer

Adm. Cum Accounts Officer

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

<b>SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</b>	<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
a) PURCHASES		
b) LABOUR		
c) CARTAGE AND CARRIAGE INWARDS		
d) ELECTRICITY AND POWER	145,108.00	23,946.00
e) WATER CHARGES		
f) INSURANCE	804.00	701.00
g) REPAIRS & MAINTENANCE INCLUDING DEVELOPMENT SOFTWARE	1,867,845.00	4,561.00
h) EXCISE DUTY		
i) RENT RATES AND TAXES	335,970.00	238,945.00
j) VEHICLES RUNNING AND MAINTENANCE		
k) POSTAGE TELEPHONE AND COMMUNICATION CHARGES	221,175.00	236,366.00
l) PRINTING AND STATIONARY	256,574.00	167,799.00
m) TRAVELLING AND CONVEYANCE EXPENSES	920,021.00	805,984.00
n) EXPENSES ON SEMINAR / WORK SHOPS		
o) SUBSCRIPTION EXPENSES / NEWS PAPERS AND PERIODICAL BOOKS	29,424.00	14,460.00
p) EXPENSES ON FEES/DEMAT CHARGES	20,058.54	5,664.00
q) AUDITORS REMUNERATION	373,038.00	158,029.00
r) HOSPITALITY EXPENSES	-	30.00
s) PROFESSIONAL CHARGES	88,690.00	183,295.00
t) PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBTS / ADVANCES		
u) IRRECOVERABLE BALANCES WRITTEN OFF		
v) RUBBER STAMP	-	1,870.00
w) FREIGHTS AND FORWARDING EXPENSES		
x) DISTRIBUTION EXPENSES		
y) ADVERTISEMENT AND PUBLICITY		
z) (i) OTHER (SPECIFY) MISCELLANIOUS EXPENSES	326,463.00	286,024.00
(ii) CONTRACTUAL EMPLOYEE	2,706,829.00	2,247,927.00
(iii) NON-RECURRING REVENUE		
(iv) Leave Salary and Pension Contribution	-	-
A-1) DIGITIZATION	257,884.00	222,504.00
B-1) SWACHH BHARAT ABHIYAN	47,362.60	35,960.00
C-1) TDS CHARGES	1,940.00	350.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,599,186.14</b>	<b>4,634,415.00</b>

Sd/-

Dy. Superintendent

Sd/-

Office Superintendent

Sd/-

Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

**Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

(AMOUNT - ₹)

<b>SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.</b>	<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
A) Grants Given To Institutions / Organization		
B) Subsidies Given To Institution/organization / Capital Loss On Maturity Of Govt Security	Nil	Nil
C) Loss On Sale Of Fixed Assest	-	1,649.32
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1,649.32</b>
Note : Name Of The Entities, Their Activities Along With The Amount Of Grants / Subsidies Are To Be Disclosed		
<b>SCHEDULE - 23 - INTEREST/ AMORTIZATION</b>	<b>CURRENT YEAR 2020-21</b>	<b>PREVIOUS YEAR 2019-20</b>
A) On Fixed Loans	Nil	Nil
B) On Other Loans (including Bank Charges)	Nil	Nil
C) Amortization On Securities	Nil	Nil
D) Appreciation	1,136.99	1,136.81
<b>TOTAL</b>	<b>1,136.99</b>	<b>1,136.81</b>

Sd/-

Dy. Superintendent

Sd/-

Office Superintendent

Sd/-

Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**FORM OF THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANIZATIONS)**  
**Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021 AND  
INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021**

**SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**1. Accounting Convention**

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the Accrual basis except Administrative Charges from Shipping Companies and Damages (Penal Charges) for delayed payments from Shipping Companies which are accounted on Actual Receipt (Cash) Basis, as the receivable amounts are not determinable. The Accounts are prepared mainly on the principles 'Going Concern and Conservatism'.

**2. Revenue Recognition**

(i) The Provident Fund Contributions are accounted for on Accrual Basis. Although Articles of Agreement are received on the employment of seamen on ships (i.e. sign on), Provident Fund and other Contributions are remitted within stipulate period of 30 days after sign off of seamen. It is not practicable to Account Provident Fund Contributions on due basis.

(ii) The income arising from Administrative Charges is also accounted for on Cash Basis. It is also not practicable and prudent to account for income from Administrative Charges on Accrual Basis in view of principle of conservatism.

(iii) The income arising from penal charges on delayed payment of Contributions (Damages) is also accounted for on Cash Basis. The claims for damages are lodged from system generated reports. The damages due can be crystallized only on receipt of explanation/clarifications from Shipping Companies. Many times, claims are required to be withdrawn due to reasons viz. mistake / error in data in Provident Fund return, continuous period of voyage, arrears payment etc. Hence, it is prudent to account for damages on Cash Basis to reflect true and fair picture and to avoid distortion.

(iv) Interest income on investments in Bonds, Bank Deposits, Government Securities etc. is accounted for on Accrual Basis and has been worked out on time proportion basis taking into account face value of the Securities invested and rate of return/interest as applicable.

**3. Expenditure Recognition**

(i) All the obligatory outstanding expenses pertaining to the current year 2020-21 but incurred / to be incurred subsequently are accounted for on Accrual Basis.

(ii) The pre-paid expenses sub-merged in the current year's expenditure are also segregated and shown under a separate head.

**4. Assets**

(i) Fixed assets acquired during the year are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition less depreciation worked out as per Income Tax Act, 1961.

- (ii) The fixed assets are taken at Written Down Value on 01/04/2020 less depreciation during the year as per rates specified in Income Tax Act, 1961.
- (iii) During the year, no assets were revalued.
- (iv) Office Premises of SPFO situated at "3rd floor Krupanidhi Building, 9, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai- 400 001" purchased on 19th February, 1970 area 3025 (in square feet). The terms of agreement inter alia provided that SPFO would pay a sum of Rs.1.82 lakh to M/s. Muiraj Tulsidas and Fattenshi Tulsida and Rs.3.93 lakh to M/s. Krupanidhi Ltd. Out of Rs.3.93 lakh paid by SPFO to Krupanidhi Ltd., it issued 120 shares of Rs.100 each and balance Rs.3.81 lakh is treated as deposit from SPFO. Nomenclature of the Asset is "Ownership Flat at Krupanidhi Building" & "Superstructure on Land belonging to the Entity".

#### 5. Depreciation

- (i) Depreciation is provided on WDV method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 to relevant financial year.
- (ii) In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered as per Income Tax Act, 1961.

#### 6. Investments

- (i) The investments are valued at cost. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.
- (ii) Premium paid on acquisition of Investments are amortised on a time proportion basis upto the date of maturity. On the other hand, Securities acquired at discount are not appreciated to the face value proportionately over the period of investment which is against the provision of Uniform Format of accounts.

#### 7. Government Grants / Subsidies

- (i) No Government grants are received during the year.

#### 8. Other Disclosures

- (i) Employers' Contributions forfeited under Para 59 (3) of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 are transferred to Forfeiture Account under Para 61 (3) ibid. During the year 2020-21 Rs.17,707.00 has been forfeited under Para 59 (3) of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966.
- (ii) Interest earned on investments of Seamen's Provident Fund monies is credited to Interest Suspense Account and interest at the rate approved by the Government for the year is appropriated from this account to Seamen's Provident Fund Accounts. During 2020-21, the interest accrued on investment but not received has been credited to this account as per mercantile / accrual method of accounting. Interest received during the year 2020-21 but pertaining to previous year/s is shown under separate heading.

Sd/-

Dy. Superintendent

Sd/-

Office Superintendent

Sd/-

Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-

Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-

Commissioner

**FORM OF THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANIZATIONS)  
Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021 AND  
INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021**

**SCHEDULE 25 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS**

**1. Contingent Liabilities**

Claims against the Organisation not acknowledge as debts.

**2. Current Assets, loans and advances**

In the opinion of the management, the current assets, loan and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

**3. Taxation**

For the purpose of income Tax Act, 1961, the Fund shall be deemed to be a recognized Provident Fund within the meaning of that Act, by virtue of section 11 of Seamen's Provident Fund Act, 1966. As such the income of the Fund is not liable for Income Tax. Since the Seamen's Provident Fund Organization is exempted from Income Tax Act 1961 in terms of section 10 (25) Income Tax Act 1961, provision for tax is not necessary.

**4. Remuneration to Auditors**

As auditors/Internal Auditors / Government Audit Dept.	Rs. 373,038.00
Taxation matters	Nil
For management services for certification	Nil
Others	Nil

**5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged/reorganized wherever necessary. The figures for the current year are on accrual basis as per Common Format of Accounting.**

6. The Details of the periodicity of un-posted items:

Sr. No.	Particulars	No. of Entries	Amount in Rs.
i.	Balance as per Last report	6313	90,648,498.43
ii.	Add : During the year 2020-21	7810	126,013,224.59
iii.	Total	14123	<b>216,661,723.02</b>
iv.	Less : Cleared during the year	1164	14,767,637.00
v.	Balance	12959	<b>201,894,086.02</b>

7. Other Disclosures

- (i) As on 31.3.2021 the total Book value is Rs. 23,011,167,093.01 and Face value is Rs. 23,136,038,207.77 and market value is Rs. 23,588,004,714.79 (including bad investments).
- (ii) Adequate provision for the following doubtful investments has been made as efforts to recover the amounts due have not been successful so far :-

Sr No.	Seamen's Provident Fund:	
(A)	Administration Account:	
	16% UP Spinning Mills	: 2,400,000.00
(B)	Staff Pension & Gratuity Fund:	
	16% UP Spinning Mills	: 2,200,000.00
	<b>Grand Total</b>	<b>** 4,600,000.00</b>

- (iii) Legal efforts to recover principal & interest on non-performing investments continue.
- (iv) Pension and Gratuity Actuarial valuation was carried out by M/s.Global Risk Consultant upto 31.03.2021 for 10 staff members, 2 NPS staff members and 33 pensioners of Seamen's Provident Fund Organization. As per their actuarial valuation the total liabilities is Rs. 18.45 crores and the actual balance in the fund as on 31/03/2021 is Rs. 13.58 crores. Further, it is submitted that Rs. 4.87 Crores is deficit against the accumulated Fund in the Pension and Gratuity Account as per actuarial valuation done in 2021. In this connection, a letter dated 26.05.2017 was written to the Ministry requesting to consider one time Grant for recoup of the fund. However, Rs. 2.92 crore have been transferred from Administrative Account to Pension and Gratuity Fund on adhoc basis during the financial year after approval of the Board of Trustees.

- (v) Invested Rs. 104.43 Crs in Non-convertible Debentures (NCDs) of DHFL downgraded by the Credit Rating Agency (CARE) & it may be treated as bad investments.
- (vi) Investment in IL&FS amounted to Rs. 18.30 crs treated as bad Investments as interest on these investments were not received during F.Y. 2020-21. As per proceedings (11th Feb. 2019) before NCLAT, two IL&FS entities (IL&FS Ltd and IL&FS Financial Services) have been placed under the 'Red' category by the new Board of Directors appointed by Union Government.
- (vii) Board of trustees, SPFO has decided that an amount of Rs. 68-70 crores required to be write off towards bad investment out of exposure of Rs. 122 crores in DHFL and IL&FS. In the 138th Board of trustees meeting, it has been further decided to set of Rs. 30 crores towards recoupment of investment turned bad in cases of M/s DHFL and IL&FS in the Financial Year 2020-21. Accordingly, Rs. 25.50 crores is diminution in DHFL and Rs. 4.50 crores is diminution from investment in IL&FS security in the F.Y. 2020-21.
- (viii) It has been decided in the 138th Board of Trustees meeting that as per SEBI Rule overnight funds are treated as investment in liquid Fund. Such investment in overnight funds are temporary in nature and portfolio manager are looking after better investment opportunities on daily basis.
8. Provident Fund Contributions received towards seafarers who sailed on board vessels of foreign flag as per bilateral agreement with National Union of Seafarers of India (NUSI) and Employers.
9. Schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2021 and the Income & Expenditure Accounts for the year ended on that date.
10. Dedicated, passion & hardwork of Indian seafarers who kept the lifeline open during the challenging time of pandemic is appreciated.

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Sd/-

**Dy. Superintendent**

**Office Superintendent**

**Asst. Adm. Accounts Officer**

**Adm. Cum Accounts Officer**

**Commissioner**

